



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 23—जुलाई 29, 2011 (श्रावण 1, 1933)

No. 30]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 23—JULY 29, 2011 (SRAVANA 1, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110 101, दिनांक 4 जुलाई 2011

सं. ए. 22017/1/2009-पीएमई--विनिवेश विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव श्री बी. बी. भटनागर की प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति के फलस्वरूप, उन्होंने दिनांक 4 जुलाई, 2011 (अपराह्न) से प्रधान मंत्री कार्यालय में अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी. के. बाली, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. आरएस/43/(ix)/2005/52-कार्मिक--इस सचिवालय की दिनांक 30 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. आरएस/43(ix)/2005/28-कार्मिक के क्रम में, राज्य सभा के सभापति ने श्री संजय सिंह, आईपीएस (एजीएमयू: 1990) की इस सचिवालय में निदेशक (सुरक्षा) के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि को 30 सितम्बर, 2011 अथवा अगले आदेशों तक बढ़ा दिया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस/46/2010/53/-कार्मिक--श्री ए. के. मनीष को 1 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, राज्य सभा टेलीविज़न में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 15,600-39,100 रुपये के वेतन बैंड-3 तथा 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन में नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों सहित अधिशासी अधिकारी (वित्त एवं लेखा) ग्रेड में नियुक्त किया गया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 जून 2011

सं. ए. 43011/11/2010-प्रशा.-I--मंत्रिमंडल सचिवालय के आईडी सं. 571/2/3/2010-सीए-III दिनांक 27.5.2011 जिसमें श्री राकेश मोहन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति के कार्यकाल को बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री का अनुमोदन सूचित किया गया है, के अनुसरण में तथा योजना आयोग की दिनांक 5 मई 2011 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति का कार्यकाल 11.08.2011 से 31.05.2012 तक बढ़ाया जाता है बशर्ते कि समिति द्वारा सितम्बर, 2011 तक एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

एस. मुखर्जी, उप सचिव

दिनांक 30 जून 2011

सं. एफ. 6(2082)/2009-प्रशा. I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री टी. वी. भावदास, आईईएस के एनएफएसजी अधिकारी तथा कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, मुंबई में निदेशक, सरकारी सेवा से दिनांक 30.06.2011 (अपराहन) से सेवानिवृत्त होते हैं।

एस. मुखर्जी, उप सचिव

दिनांक 7 जुलाई 2011

सं. ए-32013/02/2011-प्रशा. 3--राष्ट्रपति जी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2011 के का.ज्ञा. सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए)(भाग) के अनुसरण में तथा संबंधित संवर्ग एककों से उनके कार्यमुक्त हो जाने के उपरान्त, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा समूह के उनके नाम के सामने दर्शाए गए संवर्ग एककों के निम्नलिखित निजी सचिवों को वेतन बैंड पी.बी.-3, रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के वेतनमान में योजना आयोग में प्रधान निजी सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से दिनांक 30.09.2011 तक अथवा इन पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं. नाम	अधिकारियों के श्रेणी	निजी सचिव ग्रेड में चयन सूची वर्ष	संवर्ग एकक जहां निजी सचिव ग्रेड में नियमित रूप से कार्यरत थे	योजना आयोग में प्रधान निजी सचिव पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि
(श्री/श्रीमती/कुमारी)				
1. आर. वी. आर. शेषारत्नम	सामान्य	1998	व्यय विभाग	04.07.2011 पूर्वा.
2. भारत भूषण भटनागर	सामान्य	1999	-वही-	05.07.2011 पूर्वा.

2. उपर्युक्त अधिकारियों की प्रधान निजी सचिव ग्रेड पर यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और यह उन्हें इसी ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

पी. सी. भारद्वाज, अवर सचिव

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 जुलाई 2011

सं. ए-19012/41/2011-यू आई डी ए आई-यू आई डी ए आई के दिनांक 18.05.2011 के पत्र सं. ए-12013/21(पी एस)/10-यू आई डी ए आई और रक्षा मंत्रालय के दिनांक 30.06.2011 के पत्र सं. ए-37100/ए के एस/सी ए ओ/ए-6(बी) के अनुसरण में श्रीमती ललिता अक्कीश तोमर, निजी सचिव ने दिनांक 01.07.2011 (पूर्वाह्न) से मुख्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली में 9,300-34,800/- रुपये के वेतन बैंड + 4,800/- रुपये के वेतन ग्रेड

में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, निजी सचिव के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरुण कुमार सरकार, उप निदेशक (स्था.)

सं. ए-19012/42/2011-यू आई डी ए आई-यू आई डी ए आई के दिनांक 11.05.2011 के पत्र सं. ए-12013/21(एस ओ)/एच क्यू/10-यू आई डी ए आई और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.07.2011 के कार्यालय आदेश सं. ए-44013/2/2010-काडर के अनुसरण में श्री गौतम बनर्जी ने दिनांक 04.07.2011 (पूर्वाह्न) से मुख्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली में 9,300-34,800/- रुपये के वेतन बैंड + 4,800/- रुपये के वेतन ग्रेड में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरुण कुमार सरकार, उप निदेशक (स्था.)

दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. ए-19012/43/2011-यू आई डी ए आई-यू आई डी ए आई के दिनांक 18.05.2011 के पत्र सं. ए-12013/21(पी एस)/10-यू आई डी ए आई और एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के दिनांक 04.07.2011 के पत्र सं. ए-सी पी टी(पी पी)/1162/14 एसटी के अनुसरण में सुश्री पी. सैलजा ने दिनांक 05.07.2011 (पूर्वाह्न) से क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली में 9,300-34,800/- रुपये के वेतन बैंड + 4,800/- रुपये के वेतन ग्रेड में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, निजी सचिव के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरुण कुमार सरकार, उप निदेशक (स्था.)

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 24 जून 2011

सं. के-11019/3/2011-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री रंजन गोगोई के अवकाश पर चले जाने के कारण, उनकी अनुपस्थिति के दौरान, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री आदर्श कुमार गोयल को दिनांक 25.06.2011 से 01.07.2011 तक, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 30 जून 2011

सं. के-11019/3/2011-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं

हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री रंजन गोगोई के अवकाश पर चले जाने के कारण, उनकी अनुपस्थिति के दौरान, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री आदर्श कुमार गोयल को दिनांक 02.07.2011 से श्री रंजन गोगोई द्वारा मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख तक, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. के-13029/7/2010-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुमारी निर्मलजीत कौर को, दिनांक 10 जुलाई, 2011 से छह माह की अवधि के लिए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 2011

सं. आई-12015/1/2008-आई.पी.एस.-IV--केन्द्र सरकार भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम-5 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिविल सेवा परीक्षा, 2009 के परिणाम के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में आबंटित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित संवर्ग आबंटित करती हैं :--

क्र. सं.	रैंक	अभ्यर्थी का नाम	आबंटित संवर्ग
1	2	3	4
1.	51	श्री अन्तरिप सूद	गुजरात
2.	79	सुश्री स्वेता श्रीमाली	गुजरात
3.	83	श्री संजीव त्यागी	उत्तर प्रदेश
4.	84	श्री वी. विक्रमन	तमिलनाडु
5.	85	श्री गगनदीप सिंगला	राजस्थान
6.	86	श्री वैभव कृष्ण	उत्तर प्रदेश
7.	87	सुश्री दीपा एस. मुधहोल	कर्नाटक
8.	89	सुश्री मीनू कुमारी	बिहार
9.	92	श्री विकास शर्मा	राजस्थान
10.	93	श्री रवि धवन	ए जी एम यू टी
11.	94	श्री जयपाल सिंह राठौर	गुजरात
12.	97	श्री अजीत	मध्य प्रदेश

1	2	3	4
13.	102	श्री विजय राव चमाटपल्ली	आन्ध्र प्रदेश
14.	105	श्री सुरेन्द्र कुमार झा	झारखण्ड
15.	109	श्री मित्रभानु माहपात्र	उड़ीसा
16.	110	श्री मोहित चावला	हिमाचल प्रदेश
17.	112	श्री सौरभ त्रिपाठी	महाराष्ट्र
18.	116	श्री दीपक बरवाल	बिहार
19.	117	सुश्री पाटिल लीना माधवराव	गुजरात
20.	120	सुश्री बेनीट मेरी जेयकर	ए जी एम यू टी
21.	121	श्री निर्लिप्त राय	गुजरात
22.	123	श्री पुलकित खरे	महाराष्ट्र
23.	124	श्री रईस मुहम्मद भट्ट	जम्मू और कश्मीर
24.	125	श्री न्यालकोन्डा प्रकाश रेड्डी	आन्ध्र प्रदेश
25.	126	श्री लक्ष्मण एस.	कर्नाटक
26.	131	सुश्री दिव्या बी. गोपीनाथ	कर्नाटक
27.	132	सुश्री सौम्या साम्बशिवन	हिमाचल प्रदेश
28.	133	श्री परधी सौरभ जामसिंह	महाराष्ट्र
29.	134	सुश्री विनीता साहू	महाराष्ट्र
30.	136	श्री प्रभाकर चौधरी	उत्तर प्रदेश
31.	141	श्री हिमांशु कुमार	उत्तर प्रदेश
32.	142	श्री राहुल कुमार सिन्हा	झारखण्ड
33.	144	श्री आबिद खान	मध्य प्रदेश
34.	146	श्री विशाक जी.	तमिलनाडु
35.	149	श्री कुन्तल किशोर	उत्तर प्रदेश
36.	151	श्री गौरव कुमार तिवारी	मध्य प्रदेश
37.	154	सुश्री नियति ठाकरे	महाराष्ट्र
38.	159	श्री अमित शर्मा	ए जी एम यू टी
39.	161	श्री ईश सिंह	ए जी एम यू टी
40.	164	श्री अरविन्दन पी.	तमिलनाडु
41.	165	श्री अंकित गोयल	महाराष्ट्र
42.	166	श्री बलकवडे शैलेश उन्मेष	महाराष्ट्र
43.	167	श्री सुधीर कुमार रेड्डी सी. एच.	कर्नाटक

1	2	3	4	1	2	3	4
44.	170	सुश्री ईशा पाण्डेय	ए जी एम यू टी	74.	240	श्री मेघनी दीपककुमार वासुदेवभाई	गुजरात
45.	173	श्री हिमांशु शंकर त्रिवेदी	बिहार	75.	242	श्री राजीव पचार	राजस्थान
46.	174	सुश्री जोयिता बोस	पश्चिम बंगाल	76.	243	सुश्री पारुल गुप्ता	उड़ीसा
47.	175	सुश्री सारा शर्मा	उड़ीसा	77.	244	श्री पाण्डे राजीव ओमप्रकाश	जम्मू और कश्मीर
48.	176	श्री निमिष अग्रवाल	मध्य प्रदेश	78.	245	श्री डी. प्रवीण	तमिलनाडु
49.	178	श्री मिथिलेश मिश्रा	बिहार	79.	247	सुश्री चन्दन चौधरी	केरल
50.	179	श्री सागर सिंह कलसी	ए जी एम यू टी	80.	253	श्री बसवराज तेली	आन्ध्र प्रदेश
51.	181	श्री आशुतोष प्रताप सिंह	मध्य प्रदेश	81.	259	सुश्री सुलोचना कुमारी	हरियाणा
52.	184	सुश्री वर्तिका कटियार	कर्नाटक	82.	267	श्री गौरव सिंह	उत्तर प्रदेश
53.	188	श्री राजीव मिश्रा	बिहार	83.	279	श्री देशमुख पारिस अनिल	राजस्थान
54.	190	श्री कलानिधि नैथानी	उत्तर प्रदेश	84.	283	श्री पाटिल केतन बलिराम	पंजाब
55.	191	श्री राजीव रंजन सिंह	उत्तर प्रदेश	85.	284	श्री अन्नामले के.	उत्तराखण्ड
56.	194	सुश्री पूनम	उत्तर प्रदेश	86.	286	श्री भुरे सर्वेश्वर नरेन्द्र	उड़ीसा
57.	197	श्री राहुल देव शर्मा	आन्ध्र प्रदेश	87.	290	श्री मंजूनाथ भर्जत्रि	कर्नाटक
58.	205	श्री बृजेन्द्र कुमार यादव	ए जी एम यू टी	88.	292	श्री चन्दन कुमार कुशवाहा	बिहार
59.	206	श्री सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज	उत्तर प्रदेश	89.	297	श्री जे. इलन्वेलियन	पंजाब
60.	210	श्री राहुल कुमार	बिहार	90.	300	श्री निम्बले धुमन हर्षदराय	पंजाब
61.	211	सुश्री श्वेता चौहान	ए जी एम यू टी	91.	304	श्री त्यागराजन एस.	उड़ीसा
62.	213	श्री आर. चेतन	कर्नाटक	92.	305	श्री हरिप्रसाथ एस.	बिहार
63.	214	श्री कँवर विशाल सिंह	उड़ीसा	93.	306	श्री एस. राज कुमार	महाराष्ट्र
64.	219	श्री बाबूजी अटाडा	कर्नाटक	94.	308	श्री के. कन्नन	पश्चिम बंगाल
65.	220	श्री चौधरी अभिजीत विश्वनाथ	कर्नाटक	95.	309	श्री हरीश चन्द्र	उत्तर प्रदेश
66.	223	श्री सरोज कुमार ठाकुर	तमिलनाडु	96.	311	श्री क. शिव सुब्रमणी	उड़ीसा
67.	228	श्री डी. जोइल डेविस	आन्ध्र प्रदेश	97.	316	सुश्री धुरत सायली सवलाराम	बिहार
68.	229	श्री आशीष कुमार सिंह	उड़ीसा	98.	321	सुश्री कुसुम पुनिया	झारखण्ड
69.	231	श्री सिद्धार्थ बहुगुणा	तमिलनाडु	99.	324	श्री शैलेश	पश्चिम बंगाल
70.	232	श्री रमेश सिंह	असम-मेघालय	100.	327	श्री पी. मुरुगन	झारखण्ड
71.	235	श्री धीरज कुमार गुप्ता	केरल	101.	331	श्री मोहम्मद यूसुफ कुरैशी	मध्य प्रदेश
72.	236	श्री सुनील जोशी	उड़ीसा	102.	342	श्री अजय प्रसाद	पश्चिम बंगाल
73.	238	श्री मनीष अग्रवाल	जम्मू और कश्मीर	103.	347	श्री एस. कार्तिक	झारखण्ड
				104.	357	श्री धनंजय पारासरण घनावत	असम-मेघालय
				105.	363	श्री सदानन्द कुमार	छत्तीसगढ़

1	2	3	4
106. 369	श्री चोथे मनोज रतन	झारखण्ड	
107. 374	श्री वाई. एस. रमेश	झारखण्ड	
108. 380	श्री एस. सेलवनागरथिनम	मणिपुर-त्रिपुरा	
109. 381	श्री पाटिल श्रीधर डौलू	जम्मू और कश्मीर	
110. 382	श्री राघवेन्द्र कुमार एम. जी.	असम-मेघालय	
111. 386	श्री राकेश रोशन	असम-मेघालय	
112. 388	श्री नवीन एस. एल.	हरियाणा	
113. 389	श्री मणिक राज पी.	जम्मू और कश्मीर	
114. 404	श्री राठौड़ विनीत कुमार त्रिकमलाल	राजस्थान	
115. 415	श्री कुर्मा राव एम.	असम-मेघालय	
116. 417	श्री राजवीर	असम-मेघालय	
117. 419	सुश्री सरस्वती आर.	मणिपुर-त्रिपुरा	
118. 420	श्री गिरिजा शंकर जायसवाल	छत्तीसगढ़	
119. 439	श्री विशाल गुनी	आन्ध्र प्रदेश	
120. 449	श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती	मध्य प्रदेश	
121. 478	श्री एस. सेल्वामुरुगन	पश्चिम बंगाल	
122. 499	श्री सालुंखे दीपक आत्माराम	महाराष्ट्र	
123. 515	श्री हरजीत सिंह	पंजाब	
124. 535	श्री यीशे छेवांग ग्याछे	असम-मेघालय	
125. 540	श्री किरीटकुमार एच. राठौड़	उत्तर प्रदेश	
126. 544	श्री सन्तोष कुमार मीणा	ए जी एम यू टी	
127. 552	श्री शगुन गौतम	उत्तर प्रदेश	
128. 565	श्री जीवन बाबू के.	पश्चिम बंगाल	
129. 567	श्री एस. अरुण प्रसाद	पश्चिम बंगाल	
130. 589	श्री नीलेश त्रयम्बक सावकारे	असम-मेघालय	
131. 626	सुश्री रुचिका दिवाकर	मध्य-प्रदेश	
132. 637	श्री के. सबरी राज कुमार	पश्चिम बंगाल	
133. 645	श्री सत्येन्द्र कुमार	उत्तर प्रदेश	
134. 648	श्री संजय मीणा	महाराष्ट्र	
135. 649	श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना	ए जी एम यू टी	
136. 651	सुश्री संगीता रानी	हरियाणा	
137. 660	श्री अभिषेक मीना	छत्तीसगढ़	

1	2	3	4
138. 666	श्री महेन्द्र बागरिया		गुजरात
139. 672	श्री शिवहरि मीना		उत्तर प्रदेश
140. 762	श्री सुधीर कुमार पोरिका		बिहार
141. 771	सुश्री अलका मीना		उड़ीसा
142. 772	श्री जलसिंह मीणा		मणिपुर-त्रिपुरा
143. 776	श्री राहुल नाथ		हिमाचल प्रदेश

इन्द्रजीत कौर, निदेशक (पुलिस)

दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. I-14012/13/2010आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिविल सेवा परीक्षा, 2009 के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करती हैं :--

क्र.	परिवीक्षाधीन सं. भा.पु.से. अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	भा.पु.से. में नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	अभिषेक मीना	22.03.1983	30.08.2010 (पूर्वाह)
2.	अन्तरिप सूद	28.06.1982	30.08.2010 (पूर्वाह)
3.	बलकवाडे शैलेश उमेश	24.06.1984	30.08.2010 (पूर्वाह)
4.	बसवराज तेली	26.08.1982	30.08.2010 (पूर्वाह)
5.	बृजेन्द्र कुमार यादव	03.09.1976	30.08.2010 (पूर्वाह)
6.	चंदन कुमार कुशवाहा	05.08.1981	30.08.2010 (पूर्वाह)
7.	चेतन आर.	07.12.1981	30.08.2010 (पूर्वाह)
8.	चोथे मनोज रतन	30.08.1985	30.08.2010 (पूर्वाह)
9.	द. कल्याण चक्रवर्ती	19.01.1975	30.08.2010 (पूर्वाह)
10.	दीपक बरनवाल	15.06.1982	30.08.2010 (पूर्वाह)
11.	धीरज कुमार गुप्ता	18.05.1984	30.08.2010 (पूर्वाह)
12.	सुश्री धुरत सायली सवलाराम	18.10.1987	30.08.2010 (पूर्वाह)
13.	ईश सिंघल	07.12.1984	30.08.2010 (पूर्वाह)
14.	सुश्री ईशा पाण्डेय	27.02.1984	30.08.2010 (पूर्वाह)

1	2	3	4	1	2	3	4
15.	गगनदीप सिंगला	18.02.1985	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	46.	एस. सेल्वानागरथिनम	31.05.1986	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
16.	गौरव कुमार तिवारी	04.05.1982	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	47.	सदानन्द कुमार	01.01.1979	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
17.	गौरव सिंह	28.09.1984	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	48.	सागर सिंह कलसी	20.10.1982	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
18.	हरि प्रसाद एस.	03.05.1988	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	49.	सुश्री सारा शर्मा	23.07.1983	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
19.	हरीश चन्द्र	03.05.1988	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	50.	सरोज कुमार ठकुर	02.01.1982	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
20.	हिमांशु कुमार	29.05.1986	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	51.	सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज	28.02.1980	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
21.	सुश्री ज्योतिता बोस	17.11.1979	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	52.	सौरभ त्रिपाठी	11.06.1983	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
22.	के. कन्नन	15.06.1977	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	53.	सिद्धार्थ बहुगुणा	21.12.1982	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
23.	के. शिव सुब्रमणी	19.04.1980	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	54.	सुश्री सौम्या साम्बशिवन	24.03.1980	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
24.	कलानिधि नैयानी	24.04.1983	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	55.	सुधीर कुमार रेड्डी सी. एच.	22.03.1983	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
25.	कंवर विशाल सिंह	19.04.1982	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	56.	सुरेन्द्र कुमार झा	05.07.1983	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
26.	कार्तिक एस.	02.05.1979	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	57.	सुश्री स्वेता श्रीमाली	13.04.1985	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
27.	कुन्तल किशोर	05.02.1986	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	58.	वी. विक्रमन	12.06.1983	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
28.	सुश्री कुसुम पुनिया	12.10.1983	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	59.	सुश्री वर्तिका कटियार	24.03.1986	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
29.	मनीष अग्रवाल	15.01.1983	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	60.	विजयाराव चमाटपल्लि	18.06.1982	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
30.	सुश्री मीनू कुमारी	08.03.1981	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	61.	सुश्री विनीता साहू	10.09.1984	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
31.	मेघानी दीपककुमार वासुदेवभाई	08.02.1980	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	62.	यीशे छेवांग ग्याछे	15.02.1985	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
32.	एम. राज कुमार	26.08.1984	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	63.	पाण्डे राजीव ओमप्रकाश	13.08.1983	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
33.	मित्रभानु महापात्र	05.07.1985	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	64.	सुश्री चन्दन चौधरी	14.12.1979	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
34.	मोहम्मद यूसुफ कुरैशी	18.08.1978	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	65.	सुश्री सरस्वती आर.	17.05.1983	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
35.	मोहित चावला	13.01.1982	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	66.	गिरिजा शंकर जायसवाल	30.06.1983	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
36.	निलिप्त राय	28.02.1983	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	67.	वैभव कृष्ण	12.12.1983	01.12.2010 (पूर्वाह्न)
37.	सुश्री नियति ठाकर	15.03.1982	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	68.	रईस मुहम्मद भट्ट	21.09.1983	01.12.2010 (पूर्वाह्न)
38.	पी. मुरुगन	16.04.1978	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	69.	आबिद खान	16.09.1983	20.12.2010 (पूर्वाह्न)
39.	सुश्री पाटिल लीना माधवराव	03.08.1980	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	70.	अजीत	25.02.1983	20.12.2010 (पूर्वाह्न)
40.	प्रभाकर चौधरी	01.01.1984	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	71.	अजय प्रसाद	21.10.1984	20.12.2010 (पूर्वाह्न)
41.	राजेंद्र प्रसाद मीना	10.12.1981	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	72.	सुश्री अलका मीना	10.07.1982	20.12.2010 (पूर्वाह्न)
42.	राजीव रंजन सिंह	24.09.1985	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	73.	अमित शर्मा	19.08.1984	20.12.2010 (पूर्वाह्न)
43.	राकेश रौशन	15.01.1978	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	74.	अंकित गोयल	05.12.1984	20.12.2010 (पूर्वाह्न)
44.	रमेश सिंह	19.09.1979	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	75.	अन्नामलै के.	04.06.1984	20.12.2010 (पूर्वाह्न)
45.	एस. सेल्वामुरुगन	24.05.1977	30.08.2010 (पूर्वाह्न)	76.	आशुतोष प्रताप सिंह	20.11.1982	20.12.2010 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4
77.	आशीष कुमार सिंह	20.01.1984	20.12.2010 (पूर्वाह)
78.	बाबूजी अटाडा	20.02.1982	20.12.2010 (पूर्वाह)
79.	सुश्री बेनीय मेरी जेयकर	31.07.1985	20.12.2010 (पूर्वाह)
80.	भूरे सर्वेश्वर नरेन्द्र	12.09.1984	20.12.2010 (पूर्वाह)
81.	चौधरी अभिजीत विश्वनाथ	10.05.1984	20.12.2010 (पूर्वाह)
82.	डी. जोएल डेविस	06.12.1981	20.12.2010 (पूर्वाह)
83.	डी. प्रवीण	25.01.1981	20.12.2010 (पूर्वाह)
84.	सुश्री दीपा एस. मुधहोल	27.11.1985	20.12.2010 (पूर्वाह)
85.	देशमुख पारिस अनिल	30.07.1985	20.12.2010 (पूर्वाह)
86.	धनंजय पारासरण धनावत	10.04.1980	20.12.2010 (पूर्वाह)
87.	सुश्री दिव्या वी. गोपीनाथ	27.05.1982	20.12.2010 (पूर्वाह)
88.	हरजीत सिंह	22.01.1978	20.12.2010 (पूर्वाह)
89.	हिमांशु शंकर त्रिवेदी	25.07.1982	20.12.2010 (पूर्वाह)
90.	जे. इलन्वेलियन	07.06.1981	20.12.2010 (पूर्वाह)
91.	जयपाल सिंह राठौड़	09.02.1981	20.12.2010 (पूर्वाह)
92.	जलसिंह मीणा	10.07.1980	20.12.2010 (पूर्वाह)
93.	जीवन बाबू के.	14.01.1981	20.12.2010 (पूर्वाह)
94.	के. सबरी राजकुमार	12.12.1981	20.12.2010 (पूर्वाह)
95.	कुर्मा राव एम.	11.04.1980	20.12.2010 (पूर्वाह)
96.	लक्ष्मणन एस.	26.10.1980	20.12.2010 (पूर्वाह)
97.	महेन्द्र बागड़िया	19.07.1982	20.12.2010 (पूर्वाह)
98.	मणिका राज पी.	31.05.1985	20.12.2010 (पूर्वाह)
99.	मंजूनाथ भर्जत्रि	05.06.1979	20.12.2010 (पूर्वाह)
100.	मिथिलेश मिश्रा	01.01.1982	20.12.2010 (पूर्वाह)
101.	नवीन एस. एल.	25.03.1982	20.12.2010 (पूर्वाह)
102.	निलेश त्रयम्बक सावकारे	03.07.1982	20.12.2010 (पूर्वाह)
103.	निमिष अग्रवाल	09.08.1984	20.12.2010 (पूर्वाह)
104.	निम्बाले धुमन हर्षदराय	03.07.1979	20.12.2010 (पूर्वाह)
105.	न्यालकोन्ड प्रकाश रेड्डी	30.11.1984	20.12.2010 (पूर्वाह)
106.	परधी सौरभ जामसिंह	23.06.1986	20.12.2010 (पूर्वाह)
107.	सुश्री पारुल गुप्ता	14.10.1986	20.12.2010 (पूर्वाह)
108.	पाटिल केतन बलिराम	27.04.1982	20.12.2010 (पूर्वाह)

1	2	3	4
109.	पाटिल श्रीधर डौलू	27.12.1985	20.12.2010 (पूर्वाह)
110.	सुश्री पूनम	07.06.1983	20.12.2010 (पूर्वाह)
111.	पुलकित खरे	09.02.1984	20.12.2010 (पूर्वाह)
112.	रघुनेन्द्र कुमार एम. जी.	03.01.1980	20.12.2010 (पूर्वाह)
113.	राहुल देव शर्मा	19.09.1985	20.12.2010 (पूर्वाह)
114.	राहुल कुमार	06.03.1987	20.12.2010 (पूर्वाह)
115.	राहुल कुमार सिन्हा	22.12.1983	20.12.2010 (पूर्वाह)
116.	राजीव मिश्रा	16.05.1982	20.12.2010 (पूर्वाह)
117.	राजीव पचार	12.09.1979	20.12.2010 (पूर्वाह)
118.	राजवीर	10.01.1980	20.12.2010 (पूर्वाह)
119.	राठौड़ कीर्तिकुमार हरिभाई	19.05.1979	20.12.2010 (पूर्वाह)
120.	राठौड़ विनीत कुमार त्रिकमलाल	17.06.1985	20.12.2010 (पूर्वाह)
121.	रवि धवन	29.08.1987	20.12.2010 (पूर्वाह)
122.	सुश्री रुचिका दिवाकर	20.12.1984	20.12.2010 (पूर्वाह)
123.	एस. अरुण प्रसाद	27.07.1985	20.12.2010 (पूर्वाह)
124.	सुश्री संगीता रानी	20.02.1980	20.12.2010 (पूर्वाह)
125.	संजय मीणा	12.07.1983	20.12.2010 (पूर्वाह)
126.	संजीव त्यागी	15.12.1986	20.12.2010 (पूर्वाह)
127.	सतेन्द्र कुमार	28.03.1983	20.12.2010 (पूर्वाह)
128.	शैलेश	23.06.1979	20.12.2010 (पूर्वाह)
129.	संतोष कुमार मीणा	01.02.1985	20.12.2010 (पूर्वाह)
130.	सालुंखे दीपक आत्माराम	09.06.1984	20.12.2010 (पूर्वाह)
131.	शिवहरि मीना	21.06.1977	20.12.2010 (पूर्वाह)
132.	शगुन गौतम	21.08.1983	20.12.2010 (पूर्वाह)
133.	सुश्री श्वेता चौहान	02.04.1981	20.12.2010 (पूर्वाह)
134.	सुधीर कुमार पोरिका	26.11.1979	20.12.2010 (पूर्वाह)
135.	सुश्री सुलोचना कुमारी	01.10.1985	20.12.2010 (पूर्वाह)
136.	सुनील जोशी	03.09.1985	20.12.2010 (पूर्वाह)
137.	त्यागराजन एस. एम.	20.12.1984	20.12.2010 (पूर्वाह)
138.	विकास शर्मा	16.08.1985	20.12.2010 (पूर्वाह)

1	2	3	4
139.	विशाक. जी.	16.04.1987	20.12.2010 (पूर्वाह)
140.	विशाल गुन्नी	22.05.1982	20.12.2010 (पूर्वाह)
141.	वाई. एस. रमेश	06.10.1979	20.12.2010 (पूर्वाह)

इन्द्रजीत कौर, निदेशक पुलिस

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. ए-20/जी/3188-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, श्री राज कुमार सिंह, भा. प्र.से. (बिहार : 1975) को गृह मंत्रालय में गृह सचिव के रूप में दिनांक 30 जून, 2011 के अपराह्न से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. 14016/1/2010-यूटीएस-II--राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र) ने दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा (दानिप्स) के प्रविष्टि ग्रेड में 9,300--34,800/- रुपए (ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए) के वेतनमान में तत्काल प्रभाव से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया है :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	रैंज सं.	जन्म तिथि
(सर्वश्री)			
1.	राज कुमार	डी-1/1056	14.01.1958
2.	हर्ष मित्र	डी-1/753	12.12.1956
3.	हर चरण वर्मा	डी-1/629	13.10.1957
4.	धर्मवीर सिंह	डी-1/755	20.03.1957
5.	अशोक कुमार शर्मा	डी-1/756	20.06.1956

2. दिल्ली पुलिस के उपर्युक्त 5 निरीक्षकों की दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्ति सी. डब्ल्यू. पी. सं. 4210/2007-जगदीश चंद बनाम भारत संघ एवं अन्य के परिणाम के अध्यधीन होगी।

3. तथापि, उक्त आदेश को लागू करने से पहले, दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित कर ले कि उपर्युक्त निरीक्षकों पर सतर्कता की दृष्टि से कोई मामला न रहे।

व्योमेश पंत, अनुभाग अधिकारी

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 जुलाई 2011

सं. I-18011/7/2011-आई.पी.एस.-IV--भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, श्री सभ्या साची रमन मिश्रा, आई.पी.एस. (पश्चिम बंगाल : 2004) को 06.09.2006 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करती हैं।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2011

सं. 2/73/2003-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, श्री नवीन बगोत्रा को 19.05.2011 (पूर्वाह) से 30.09.2011 तक की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या सी एस एस एस के नियमित आशुलिपिक ग्रेड-'ए' एवं 'बी' (विलयित) (निजी सचिव) उपलब्ध कराए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एल. बी. तोल्टे, अवर सचिव

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. ए-19013/01/2008-प्र.सु.(प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, श्री एस. ए. रहीम का नाम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.07.2011 के कार्यालय आदेश सं. 3/2/2011-सीएस-I (डी) के द्वारा वर्ष 2011 हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 1 जुलाई, 2011 की पूर्वाह्न से नियमित आधार पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

हेमन्त वर्मा, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2011

सं. क्यू/पीबी-11/584/2010--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के दिनांक 12 मई, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू/सीएडी/584/4/2011 के अनुसरण में भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड-II के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-1 में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करती हैं :-

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति की तारीख	वर्तमान नियुक्ति
1	2	3	4	5

वर्ष 2010-11 के लिए चयन सूची (अनुपूरक)

(श्री/श्रीमती)

1.	पूर्णमा रामाकृष्णा	10.02.1967	05.05.2011	जेएस (पूर्वाह) (ईआरएस)
----	--------------------	------------	------------	------------------------

1	2	3	4	5
2.	एम. एस. प्रसाद	10.07.1961	05.05.2011 (पूर्वाह्न)	भा.दू., द हेग
3.	राजेश कुमार	20.08.1967	05.05.2011 (पूर्वाह्न)	भा.दू., हनोई
4.	स्वपन कुमार मसीद	08.01.1959	05.05.2011 (पूर्वाह्न)	भा.उ., लंदन
5.	अनिमा कुजुर	21.04.1969	05.05.2011 (पूर्वाह्न)	भा.दू., पेरिस

वर्ष 2011-12 के लिए चयन सूची (नियमित)

1.	मनजीत कौर सैनी	11.12.1960	05.05.2011 (पूर्वाह्न)	भा.उ., डब्लिन
2.	अरविंदर सिंह	10.04.1971	05.05.2011 (पूर्वाह्न)	पीएमआई, न्यूयार्क
3.	मुनिशा बेहरा	10.11.1971	05.05.2011 (पूर्वाह्न)	भा.दू., हवाना
4.	राहुल भिवाजी गजभिये	01.12.1970	05.05.2011 (पूर्वाह्न)	भा.दू., यांगून
5.	रमन कुमार	11.06.1970	05.05.2011 (पूर्वाह्न)	भा.दू., पेरिस

2. नियुक्ति की अन्य शर्तें एवं निबंधन भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-I के अधिकारियों की नियुक्ति के अनुरूप होंगी।

नौरज कुमार जयसवाल, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-II)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 2011

सं. 49 : (फा. सं. ए-50/150/2008-प्रशा. I)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के वित्त संवर्ग के नियमित सहायक श्री जूलियस चोरंथ को दिनांक 16.06.2011 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक राजस्व विभाग में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री जूलियस चोरंथ की तदर्थ पदोन्नति प्रारंभ में 30.06.2011 तक अथवा अगले आदेशों तक होगी। श्री जूलियस चोरंथ की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित निबंधन तथा शर्तों के अधीन होगी :--

(i) अंतःकालीन व्यवस्था होने के कारण, तदर्थ नियुक्तियों से उन्हें ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु

चयन सूची में शामिल होने या अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ii) यह तदर्थ व्यवस्था, वरीयता कोट/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एल डी सी ई) से अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में नियमित उम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक जारी रहेगी।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 28 जून 2011

सं. 50 : (फा. सं. ए-19013/10/2011-प्रशा. I)--राष्ट्रपति, श्री विपुल अग्रवाल, (भारतीय राजस्व सेवा-आयकर) को दिनांक 18.05.2011 के (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 51 : (फा. सं. ए-19013/11/2011-प्रशा. I)--राष्ट्रपति, श्री पी. एस. शिवाशंकरन, (भारतीय राजस्व सेवा-आयकर) को दिनांक 18.05.2011 के (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 52 : (फा. सं. ए-19011/09/2011-प्रशा. I)--राष्ट्रपति, श्री आर. एस. गुजराल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हरियाणा : 76) को दिनांक 30.06.2011 (अपराह्न) से और अगले आदेशों तक, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में भारत सरकार के सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 4 जुलाई 2011

सं. 54 : (फा. सं. ए-38011/1/2011-प्रशा. I)--राजस्व विभाग में वित्त सचिव और सचिव (राजस्व) के रूप में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा (प. बं. : 75) के अधिकारी श्री सुनील मित्रा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30 जून, 2011 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 55 : (फा. सं. ए-19011/10/2011-प्रशा. I)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस : 1980) के अधिकारी श्री एस. के. लोहानी को दिनांक 01.07.2011 (पूर्वाह्न) से उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 31.07.2014 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो,

राजस्व विभाग में ग्रेड वेतन 10,000/- रुपये सहित वेतन बैंड 37,400--67,000/- (वेतन बैंड-4) में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. ए-12011/3/2011-प्रशा. II--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 15.06.2011 के आदेश सं. 5/3/2010-सीएस-I(यू) तथा इस विभाग की 08.06.2010, 08.07.2010, 21.09.2010, 27.09.2010, 15.10.2010, 08.11.2010 और 08.12.2010 की अधिसूचना सं. ए-12011/4/2010-प्रशा. II के क्रम में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में निम्नलिखित अवर सचिवों की नियुक्ति, तदर्थ आधार पर 31.05.2012 तक अथवा पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	सीएसएल सं.
	सर्वश्री	
(क)	अशोक कुमार	6328
(ख)	प्रवीण कुमार डुडेजा	6332
(ग)	सनातन	6389
(घ)	विश्वबन्धन सेनापति	6393
(ङ)	मृत्युंजय झा	6416
(च)	सी. के. रामास्वामी	6455
(छ)	देवेन्द्र सिंह गौड	6471
(ज)	सैयद अली साबिर	6495
(झ)	जितेन्द्र मलिक	6506
(ञ)	अरूण सोबती	6582
(ट)	सुश्री उर्मिला रावत	6713
(ठ)	अभय कुमार शर्न	6678
(ड)	अनुराग किशन भटनागर	6723
(ढ)	रंजीत कुमार सिन्हा	6727
(ण)	उज्ज्वल कुमार	6709
(त)	सुधीरा कुमार सामन्तराय	6821
(थ)	सुश्री ज्योत्सना गुप्ता	6829

2. उपर्युक्त नियुक्ति इस विभाग की उपर्युक्त अधिसूचनाओं में उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन हैं।

सागर मेहरा, निदेशक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 जुलाई 2011

सं. ए-19011/1/2010-प्रशा. IV--कम्पनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अभियोग्यता, अनुभव एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 1993 के नियम 8क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार श्रीमती विमला यादव, सदस्य (तकनीकी), कम्पनी विधि बोर्ड, बोर्ड की सबसे वरिष्ठ सदस्य को न्यायमूर्ति श्री डी. आर. देशमुख, अध्यक्ष, कम्पनी विधि बोर्ड की अवकाश अवधि के दौरान 16.5.2011 से 15.7.2011 तक या अगले आदेश तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती हैं।

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. ए-32014/6/2010-संवर्ग--राष्ट्रपति, इस संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की आशुलिपिक, ग्रेड 'सी' श्रीमती उर्मिल पन्नू को दिनांक 01.07.2011 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो तदर्थ आधार पर पूर्ति प्रभाग में पी.बी. 2 में (रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,800/-) में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

संजय शंकर, अवर सचिव

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 2011

सं. 5/2011(फा.सं. ए-11013/01/2009/एच.आर. डी. -1/2464)--राष्ट्रपति, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एंटी डंपिंग निदेशालय (व्यापार उपचार महानिदेशालय, पुनः नामित होने के लिए) निदेशक स्तर के 5 पद पे-बैंड 4, 37,400--67,000/- रु. ग्रेड पे 8,700/- रु. के वेतनमान में भारतीय व्यापार सेवा (आई टी एस) समूह 'क' के संवर्ग में शामिल करने की भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एतद्वारा सहमति प्रदान करते हैं।

2. यह अधिसूचना, वाणिज्य विभाग के आदेश संख्या ए-11013/1/2007-ई. III दिनांक 10.05.2011 की सहमति से जारी की जाती है।

अनूप के. पुजारी, विदेश व्यापार महानिदेशक
एवं पदेन अतिरिक्त सचिव

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2011

सं. ए-19011/739/2009-स्था. I--औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में निदेशक, सीएसएस श्री आर. एस. गर्ग अधिवर्षिता वय प्राप्त करने पर 30 जून, 2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2011

सं. ए-12023/04/2009-स्था. I--राष्ट्रपति, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों की अवर सचिव (सीएसएस के ग्रेड-I) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 31.05.2012 तक की अवधि के लिए अथवा पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	सीएसएस सं.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व जिस मंत्रालय/विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात थे उसका नाम
1.	श्री सिद्धार्थ बच्चन	6380	रक्षा मंत्रालय
2.	श्री राजेश कुमार	6481	रक्षा मंत्रालय
3.	श्री संजय कुमार लाल	6517	विधायी विभाग
4.	श्री देवेन्द्र सिंह परिहार	6523	रक्षा मंत्रालय
5.	श्रीमती गुरप्रीत गढ़ोक	6544	संघ लोक सेवा आयोग
6.	श्री अरूण कुमार	6615	रक्षा मंत्रालय
7.	श्री संजीव कुमार सहगल	6622	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय
8.	श्री एस. एन. मिश्रा	6711	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
9.	श्री गोकुल नगरकोटी	6703	शहरी विभाग मंत्रालय
10.	श्री ललित कुमार शर्मा	6823	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

तदर्थ नियुक्ति को 31.05.2012 तक बढ़ाया जाना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 मई, 2010, 3 सितम्बर, 2010 और 11 नवम्बर, 2010 के आदेश सं. 5/3/2010-सीएस. I (यू) में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन है।

एस. के. अहलूवालिया, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. ए-19011/11/2011-प्रशा.--राष्ट्रपति ने श्री राकेश कक्कड़, भा.प्र.से. (तमिलनाडु : 77) को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया है।

श्री राकेश कक्कड़, भा.प्र.से. (तमिलनाडु : 77) ने 01 जुलाई, 2011 के (पूर्वाह्न) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

संजय बाजपेई, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 मई 2011

सं. 17016/19/97-आईएफएस (पीटी)--भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य सरकार और मध्य प्रदेश की सहमति से श्री अशोक कुमार, भा.व.से. (एम.एस. : 2006) का महाराष्ट्र संवर्ग से भारतीय वन सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया जाता है।

एस. एस. बधावन, निदेशक (भा.व.से.)

सं. 17016/19/97-आईएफएस (पीटी)--भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सरकार और एजीएमयूटी संवर्ग की सहमति से श्रीमती राखी नन्दा, भा.व.से. (एजीएमयूटी : 2007) का एजीएमयूटी संवर्ग से भारतीय वन सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया जाता है।

एस. एस. बधावन, निदेशक (भा.व.से.)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 मार्च 2011

सं. ए-19011/2/2011-पी. II (.)--राष्ट्रपति, श्री अनिरुद्ध मुखर्जी, आईएएस (म. प्र. : 93) को वेतन बैंड-4 (37,400--67,000/- रु.), ग्रेड वेतन 8,700/- रु. में 14 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में निदेशक के पद पर पांच वर्षों की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एम. एम. पांडेय, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 अप्रैल 2011

सं. ए-32012/03/2010-पी. II (.)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 मार्च, 2011 के का. ज्ञा. सं. 5/12/2010-सी.एस. II (ए) के अनुसरण में राष्ट्रपति, इस मंत्रालय में श्री सतीश कुमार शर्मा, सी.एस.एस.एस. के प्रधान निजी सचिव को दिनांक 25 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 7,600/- रु. के वेतनमान में चयन सूची वर्ष 2010 के लिए सी.एस.एस.एस. के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (वरिष्ठ पी.पी.एस.) ग्रेड में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. एल. वाधवानी, अवर सचिव

दिनांक 24 मई 2011

सं. ए-32012/02/2010-पी. II (.)--राष्ट्रपति, के.स.आ.से. संवर्ग के निम्नलिखित निजी सचिवों, जिनके नामों के सम्मुख उनके मंत्रालय/विभाग उल्लिखित हैं, को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.03.2011 के का. ज्ञा. सं. 3/1/2011-सी.एस. II (ए) द्वारा तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के पद पर उनकी पदोन्नति और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में उनके नामांकन के परिणामस्वरूप दिनांक 30.09.2011 की अवधि तक अथवा नियमित आधार पर पदों को भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए उनके नामों के सम्मुख उल्लिखित तिथि से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 6,600/- रु. के वेतनमान में के. स.आ.से. के प्रधान निजी सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	संवर्ग, जहां से एमओईएफ में नामित हुए	कार्यग्रहण तिथि
	श्री/सुश्री		
1.	प्रदीप कुमार	रक्षा	29.04.2011 (पूर्वाह)
2.	जगजीत सिंह	निगमित कार्य	29.04.2011 (अपराह)
3.	आर. के. मित्तल	सूचना एवं प्रसारण	27.04.2011 (पूर्वाह)
4.	ए. के. त्रिपाठी	व्यय	02.05.2011 (पूर्वाह)
5.	आर. के. जिंदल	ग्रामीण विकास	12.05.2011 (पूर्वाह)

2. पीपीएस के ग्रेड में इन अधिकारियों की नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और उन्हें अनिश्चित रूप से इस ग्रेड में बने रहने के लिए अथवा पीपीएस के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं होगा।

3. यह अधिसूचना दिनांक 24.05.2011 की समसंख्यक पूर्व अधिसूचना का अधिक्रमण करती है।

एम. एल. वाधवानी, अवर सचिव

दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 38011/10/2011/पी. II--श्रीमती सुरिन्दर कौर बाबरा, अनुभाग अधिकारी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के उपरान्त 30 जून, 2011 को अपराह से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गई हैं।

एम. एल. वाधवानी, अवर सचिव

सं. ए-32012/01/2010-पी. II (.)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 मार्च, 2011 और 13 अप्रैल, 2011 के का. ज्ञा. सं. 4/2/2011-सी.एस. II (ए) के अनुसरण में राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' को उनके नामों के सम्मुख उल्लिखित तिथि से 30.09.2011 की अवधि तक अथवा नियमित निजी सचिव के उपलब्ध होने तक जो भी

पहले हो, के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में तदर्थ आधार पर पीबी-2, 9,300--34,800/- रु. + ग्रेड वेतन 4,800/- रु. के वेतनमान में के.सचि.आ. सेवा संवर्ग के निजी सचिव (नि. स.) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	कार्यग्रहण की तिथि
	श्री/सुश्री	
1.	के. एल. वशिष्ठ	29.06.11 (पूर्वाह)
2.	पी. पी. एस. चावला	01.07.11 (पूर्वाह)
3.	अमित मुंजल	29.06.11 (पूर्वाह)
4.	नवनीत कुमार	29.06.11 (पूर्वाह)
5.	सुनील कुमार	29.06.11 (पूर्वाह)
6.	नारायण दत्त	29.06.11 (पूर्वाह)
7.	मीनाक्षी साहनी	29.06.11 (पूर्वाह)
8.	सुनील कुमार	29.06.11 (पूर्वाह)
9.	रजनीश	29.06.11 (पूर्वाह)
10.	बी. डी. बेलवाल	29.06.11 (पूर्वाह)
11.	वी. पी. भट्ट	01.07.11 (पूर्वाह)
12.	हेमन्त	01.07.11 (पूर्वाह)

2. यह तदर्थ नियुक्ति, नियुक्त हुए व्यक्तियों को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु सीएसएसएस के निजी सचिव की चयन सूची में समावेशन अथवा सीएसएसएस के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एम. एल. वाधवानी, अवर सचिव

दिनांक 4 जुलाई 2011

सं. 11014/1/2009/पी. II (.)--राष्ट्रपति, श्री आर., विनील कृष्णा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ओ.आर. : 2005) को अवर सचिव के स्तर पर, श्री जयराम रमेश, पर्यावरण और वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव के रूप में 01 जुलाई 2011 के पूर्वाह से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम.एल. वाधवानी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 2011

सं. ए. 12025/1/2009-डीएफक्यूसी--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर श्री सत्यपाल शानी, फ्लैट नं. 52, प्लॉट नं. 31, सुरुचि अपार्टमेंट, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली को स्वास्थ्य

सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय औषध मानकीकरण नियंत्रण संगठन में पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से और आगामी आदेशों तक अनुमत्य भर्तों सहित संशोधित वेतन ढांचे पीबी-2, 15,600--39,100/- रु. और ग्रेड पे 7,600/- रु. (समूह 'क' राजपत्रित) में सीधी भर्ती के आधार पर उप औषध नियंत्रक (भारत) के पद पर अस्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं।

2. श्री सत्यपाल शानी एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

सुधीर कुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. ए. 38012/05/2011-स्थापना-I--स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में कार्य कर रहे श्री मोहम्मद सलीम अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 30 जून, 2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 2011

सं. 32011/01/2009-स्था.-II--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कृषि एवं सहकारिता विभाग में नियमित वरिष्ठ तकनीकी सहायक (फसल) श्री आर. आर. शर्मा को 01 जून 2011 के पूर्वाह्न से कृषि एवं सहकारिता विभाग में नियमित पदोन्नति आधार पर वेतन बैंड-2 में 4,800/- के ग्रेड वेतन के साथ 9,300--34,800/- रु. के वेतनमान में सहायक निदेशक (फसल) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

के. संजयन, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2011

सं. ए-19011/10/2008-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री मनोज कुमार केजरेवाल को वर्ष 2011 की चयन सूची के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में उनका नाम शामिल किए जाने के पश्चात डीओपी एंड टी के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/2/2011 सीएस-I (डी) दिनांक 01.07.2011 के तहत उन्हें इस विभाग में तैनात किए जाने पर पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग दिनांक 01.07.2011 पूर्वाह्न से 37,000--67,000/- (पीबी-4) + 8,700/- रु. (जीपी) के वेतनमान में उप सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

सुभाष चन्द खत्री, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2011

सं. 2-1/2006-मा. (प्रशा.)--राष्ट्रपति, श्री श्रवण कुमार की भारतीय

मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई में सर्विस इंजीनियर (मैकेनिकल) (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित (अननुसचिवीय) के पद से त्यागपत्र को 07 फरवरी, 2009 से स्वीकृत करती हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. 30-15/2011-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री आर. एन. गौतम, माननीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) के सहायक निजी सचिव को 09.06.2011 पूर्वाह्न से सेवामुक्त करते हैं।

विजय सिंह, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110114, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. ए-32014/01/2010-स्थापना-II--राष्ट्रपति, श्रीमती सरला आर्या, आशुलिपिक ग्रेड 'सी' (नियमित) को दिनांक 30.06.2011 (अपराह्न) से पे-बैंड-2, 9,300--34,800/- रु. + ग्रेड पे 4,800/- रु. में ग्रामीण विकास मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) संवर्ग में (आशुलिपिक ग्रेड 'ए' एवं 'बी' विलय हो जाने पर) निजी सचिव (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर तदर्थ (Ad hoc) आधार पर या अगला आदेश आने तक नियुक्त करती हैं।

जॉर्ज वाई., अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2011

सं. ए. 32013/3/2005-ई-III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.11.2010 के का.ज्ञा. सं. 20/31/2010-सीएस-II के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री सम्पूर्ण सिंह, योजना आयोग के सीएसएसएस काडर के निजी सचिव को 08.12.2010 की पूर्वाह्न से 30.06.2011 तक या नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेश होने तक तदर्थ आधार पर उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के काडर में वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 6,600/- रु.) में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

संजय गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 9 मई 2011

सं. ए. 32013/1/2011-ई-III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 3/1/2011-सीएस-II (ए) दिनांक 29.03.2011 के अनुसरण में राष्ट्रपति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित निजी सचिवों को उसी संवर्ग में वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 6,600/- रु.) में 25.04.2011

के पूर्वाह्न से 30.09.2011 तक अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेश होने तक तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं:--

क्र. नाम	मंत्रालय जहां काम कर रहे हैं	मंत्रालय जहां नामित किया गया है
1.	श्रीमती जी.के. तलवार	मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
2.	श्री जी अनिल कुमार	मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग

संजय गुप्ता, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 2011

सं. 5-8/2007-प्रशासन--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 सितम्बर, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/12/2008-सीएस-II के अनुसार, आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (आमेलित) पद पर नियुक्ति के लिए श्रीमती पुष्पा नारंग का नामांकन किए जाने तथा सीएसएसएस की वर्ष 2006 की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कैंडिडेट यूनिट में दिनांक 25.04.2011 से सीएसएसएस कैंडिडेट में आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (आमेलित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 24 जून 2011

सं. 2-1/2009-प्रशा. -- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ईओ कार्यालय के दिनांक 16 जून, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31/11/2010-ईओ(एम. एम. I) (भाग-I) के आधार पर राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री वाई.एम. पाण्डेय को दिनांक 07.04.2011 से 28.02.2015 तक की अवधि, अर्थात् मंत्री परिषद के वैयक्तिक कर्मचारी के रूप में कार्य करने की अधिकतम 10 वर्ष की शेष बची अवधि के लिए 7,600/- रु. की ग्रेड पे सहित 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड-3 में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा तीरथ का विशेष कार्य अधिकारी (उप सचिव स्तर) नियुक्त करते हैं। श्री पाण्डेय की यह नियुक्ति मंत्री महोदय के कार्यकाल की समाप्ति या मंत्री जी के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्यकाल समाप्त होने या अगले आदेश होने तक के लिए है, जो भी पहले हो।

नवीन यादव, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. ए-19012/3/2005-स्था.--श्री अशोक वर्मा, अनुभाग अधिकारी दिनांक 30.06.2011 (अपराह्न) से अधिवर्षिता की आयु पूरी हो जाने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वनिता सूद, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2011

सं. 19011/15/2008-स्था.--श्रीमती कुलविन्दर मलिक, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.06.2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

ए.के. साहा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 फरवरी 2011

सं. पीएफ-614/प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री एस.आर. राव, भारतीय प्रशासनिक सेवा (गुजरात : 78), को दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति 3 फरवरी, 2011 के पूर्वाह्न से प्रभावी होगी।

अनिल कुमार, निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 11 फरवरी 2011

एं. पीएफ 571/प्रशा. I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.02.2011 के आदेश सं. 12/2/2011-ईओ(एसएम-I) के अनुसरण में, प्रशासक, यूएसओ निधि के पद को अस्थायी रूप से उन्नयन करके श्री अजय भट्टाचार्य, भारतीय प्रशासनिक सेवा (तमिलनाडु : 77) को स्वस्थाने उन्नयन के आधार पर दिनांक 01 फरवरी 2011 से सचिव के रैंक और वेतनमान में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग में प्रशासक, सूएसओएफ के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार, निदेशक (प्रशा.)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. ईआरबी-1/2011/2/18--रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा (आरबीएसएसएस) की प्रमुख निजी सचिव श्रीमती गीता शर्मा को 07.04.2011 के पूर्वाह्न से पे बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- जमा ग्रेड पे रु. 7,600/- के वेतनमान में रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिकीय

सेवा (आरबीएसएसएस) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव,
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 7 जून 2011

सं. ईआरबी-1/2011/2/9--राष्ट्रपति जी, श्री ए.के. मिश्रा, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरी सेवा, सलाहकार (दूरसंचार), रेलवे बोर्ड की 24.06.2011 के पूर्वाह्न से ग्रेड रु. 75,500--80,000/- में पदोन्नति होने पर अपर सदस्य (दूरसंचार), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव,
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 7 जुलाई 2011

सं. ईआरबी-1/2011/2/20--राष्ट्रपति जी, श्री महेश कुमार, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरी सेवा, सलाहकार (सिग्नल), रेलवे बोर्ड की 24.06.2011 के पूर्वाह्न से ग्रेड रु. 75,500--80,000/- में पदोन्नति होने पर अपर सदस्य (सिग्नल), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव,
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली-100001, दिनांक 4 जुलाई 2011

सं. ए-12025/1/2011-स्था.--राष्ट्रपति, श्री आर.के. छिब्बर, सहायक चार्टरिंग अधिकारी को प्रोन्नति पर, पोत परिवहन मंत्रालय में पे बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/- के वेतनमान में दिनांक 01.07.2011 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर चार्टरिंग अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ए. एम. विजयन, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2011

सं. ए-12023/3/2011-ई-1--राष्ट्रपति, श्री हेमन्त चौधरी, प्रधानाचार्य, आईटीआई, दहोद, श्रम और रोजगार विभाग, गुजरात सरकार, को 9,300--34,800/- रु. के पे बैंड-2 + 4,800/- रु. के ग्रेड पे में दिनांक 04.02.2011 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक अथवा जब तक माननीय मंत्री उनकी सेवा लेना चाहें अथवा मंत्री के पद पर रहने तक, जो भी पहले हो, सह-अवसानी/प्रतिनियुक्ति आधार पर माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (डॉ. तुषार ए. चौधरी) के सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

सं. ए-19011/4/2011-ई-1--राष्ट्रपति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 07.03.2011 के कार्यालय आदेश सं. 12016/3/जेएजी/2010-आईएसएस के अनुसरण में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यरत श्री हंसराज यादव, (भारतीय सांख्यिकीय सेवा) को पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपए + 7,600/- रुपए के ग्रेड पे में दिनांक 07.03.2011 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में नियमित आधार पर संयुक्त निदेशक (जेएजी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2011

सं. 24/2011 (फाइल संख्या 5/6/2008-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29/3/2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/1/2011-सीएस-II(ए) के माध्यम से तदर्थ आधार पर सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के लिए उनकी पदोन्नति तथा सीएसएसएस के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में उनके नामांकन के परिणामस्वरूप, सीएसएस के निम्नांकित नियमित निजी सचिवों को 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों के होने तक, जो भी पहले हो, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों से पे बैंड-3 (15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) में सीएसएसएस के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख	तैनाती
1	2	3	4
(सर्वश्री)			
1.	एस. दत्तात्रेयुलू	19.04.2011 (पूर्वाह्न)	सीईए
2.	आर. के. पिपलानी	13.05.2011 (पूर्वाह्न)	सीईए
3.	दिनेश सचदेवा	11.05.2011 (पूर्वाह्न)	सीईए
4.	राजेन्द्र कुमार कपिल	29.03.2011 (पूर्वाह्न)	सीईए
5.	श्रीमती नरेश चोपड़ा	06.04.2011 (पूर्वाह्न)	एमएनआरई
6.	श्रीमती मंजू शर्मा	11.04.2011 (पूर्वाह्न)	विद्युत मंत्रालय
7.	वी. के. मनचंदा	01.04.2011 (पूर्वाह्न)	सीईए
8.	श्रीमती स्वर्ण लता	11.04.2011 (पूर्वाह्न)	विद्युत मंत्रालय
9.	श्रीमती बी. संध्या	05.05.2011 (पूर्वाह्न)	सीईए
10.	भूप सिंह	07.04.2011 (पूर्वाह्न)	विद्युत मंत्रालय
11.	जितेन्द्र भगत	11.04.2011 (पूर्वाह्न)	एमएनआरई
12.	महेश कुमार गुप्ता	19.04.2011 (पूर्वाह्न)	सीईए
13.	श्रीमती एस. राधा गंगाधरन	07.04.2011 (पूर्वाह्न)	सीईए
14.	श्रीमती अंजु विज	28.04.2011 (पूर्वाह्न)	एमएनआरई
15.	सुश्री स्नेह लता जवास	11.04.2011 (पूर्वाह्न)	विद्युत मंत्रालय
16.	नरेश छिब्बर	06.04.2011 (पूर्वाह्न)	विद्युत मंत्रालय

1	2	3	4
17.	श्रीमती सुभाष कुमारी कैले	28.04.2011 (पूर्वाह्न)	एमएनआरई
18.	पी. एस. भंडारी	29.03.2011 (पूर्वाह्न)	विद्युत मंत्रालय
19.	ए. सेथुमाधवन	29.03.2011 (पूर्वाह्न)	सीईए
20.	वी. रिचर्ड्स	29.03.2011 (पूर्वाह्न)	एमएनआरई

मधुकर सूद, अवर सचिव

दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 25/2011 (फा. सं. 12/1/2011-प्रशा.-II)--श्री किशन चन्द शर्मा, अनुभाग अधिकारी, विद्युत मंत्रालय, अधिवर्षिता प्राप्त करने पर 30 जून, 2011 के अपराह्न से, सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए।

मधुकर सूद, अवर सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 6/270/95-प्रशा.-I--राष्ट्रपति द्वारा श्री वी. रिचर्ड्स, निजी सचिव, सीएसएसएस कैडर 'ए' और 'बी' (विलय) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए) के द्वारा सीएसएसएस कैडर के प्रधान निजी सचिव ग्रेड (तदर्थ) के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप दिनांक 29.03.2011 से 6,600/- रु. ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- के पे-बैंड में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2011

सं. 301/12/2009-एफ(एफ)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर सुश्री तनु राय (ओबीसी) को 6,600/- रु. के ग्रेड पे के साथ पे-बैंड 15,600--39,100/- रु. (पीबी-3) के वेतनमान में फिल्म समारोह निदेशालय, नई दिल्ली में दिनांक 27 जून, 2011 की पूर्वाह्न से उप निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

2. सुश्री तनु राय की चिकित्सीय जांच कर ली गई और उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त पाया गया है।

3. सुश्री तनु राय नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगी।

एस. नागनाथन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2011

सं. ए-12025/5/2006-आई.आई.एस. (खंड-II)--राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा 2007 (अनुपूरक सूची) के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित

उम्मीदवारों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीखों से 5,400/- रु. ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- रु. के पे-बैंड में (पूर्व संशोधित वेतनमान 8,000-275-13,500/- रु.) भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करती है :--

क्रम सं.	उम्मीदवारों के नाम	रैंक सं.	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री नीलेश कुमार कलभोर	661	09.05.2011 (पूर्वाह्न)
2.	श्री परमदीप सिंह	664	09.05.2011 (पूर्वाह्न)
3.	श्री संतोष गोपाल अजमेरा	667	10.05.2011 (पूर्वाह्न)
4.	सुश्री कीर्ति तिवारी	668	09.05.2011 (पूर्वाह्न)
5.	श्री सिद्धार्थ बब्बनराव बोडके	675	10.05.2011 (पूर्वाह्न)
6.	श्री मुलांगी नंदा किशोर	686	23.05.2011 (पूर्वाह्न)
7.	श्री महेश कुमार	682	12.05.2011 (पूर्वाह्न)
8.	सुश्री नवनीत कौर	693	12.05.2011 (पूर्वाह्न)
9.	श्री वरुण भारद्वाज	694	12.05.2011 (पूर्वाह्न)

2. उपर्युक्त अधिकारी भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष तक परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

3. वे अगले आदेशों तक निम्नलिखित माध्यम एककों में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त किए जाते हैं :--

1. श्री नीलेश कुमार कलभोर : दूरदर्शन समाचार, नई दिल्ली
2. श्री परमदीप सिंह : दूरदर्शन समाचार, नई दिल्ली
3. श्री संतोष गोपाल अजमेरा : समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी, नई दिल्ली
4. सुश्री कीर्ति तिवारी : पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली
5. श्री सिद्धार्थ बब्बनराव बोडके : दूरदर्शन समाचार, नई दिल्ली
6. श्री मुलांगी नंदा किशोर : समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली
7. श्री महेश कुमार : समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी, नई दिल्ली
8. सुश्री नवनीत कौर : पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली
9. श्री वरुण भारद्वाज : समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी, नई दिल्ली

रेनू अरोड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. 264/2011 (फा.सं. 18/21/2007-प्रशा.-II)--इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के मुख्य सचिवालय (मंत्रालय) में तैनात श्री ए. डी. रॉय, अवर सचिव (सीएसएल सं. 4387) अपनी अधिवर्षिता

की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 30.06.2011 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

दिनांक 4 जुलाई 2011

सं 265/2011 (फा.सं. 6/1/2007-प्रशा.-II)--महामहिम राष्ट्रपति, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव, श्री अरविंद कुमार, भा. प्रशा.से. (उ.प्र. : 88) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल को दिनांक 21.08.2011 के बाद की तीन माह की अवधि के लिए, अर्थात् दिनांक 21.11.2011 तक बढ़ाती हैं।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2011

सं. 167/2011 (फा. संख्या ए-38013/5/2010-प्रशा.-I)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्रम और रोजगार मंत्रालय में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री के. आर. बंसौड, अनुभाग अधिकारी दिनांक 30.06.2011 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. ए-22011/2/2005-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री चन्द्र प्रकाश, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उ.प्र. : 82) को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में 04 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 4th July 2011

No. A-22017/1/2009-PME—Consequent upon his promotion to the post of Principal Private Secretary on ad hoc basis, Shri B. B. Bhatnagar, Private Secretary of CSSS cadre of Department of Disinvestment, has relinquished the charge of the post in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 4th July, 2011.

P. K. BALI, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st July 2011

No. RS/43(ix)/2005/52-Perl.—In continuation of this Secretariat's Notification No. RS/43(ix)/2005/28-Perl. dated the 30th March, 2011, the Chairman, Rajya Sabha has been pleased to extend the term of deputation of Shri Sanjay Singh, IPS (AGMU:1990) as Director (Security) in this Secretariat till 30th September, 2011 or until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

No. RS/46/2010/53-Perl.—Shri A. K. Manish has been appointed to the grade of Executive Officer (Finance & Accounts) in the Rajya Sabha Television on deputation basis in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/-, plus usual allowances as admissible under the rules, with effect from the forenoon of 1st July, 2011 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 20th June 2011

No. A-43011/11/2010-Adm.-I—In pursuance of Cabinet Secretariat's ID No. 571/2/3/2010-CA-III dated 27.05.2011 conveying approval of the Prime Minister to the extension in the tenure of the National Transport Development Policy Committee headed by Shri Rakesh Mohan and in continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 5th May, 2011, the term of National Transport Development Policy Committee stands extended for the period from 11.08.2011 to 31.05.2012, subject to the condition that an interim report will be submitted by the Committee by September, 2011.

S. MUKHERJEE, Dy. Secy.

The 30th June 2011

No. F-6(2082)/2009-Adm.-I—On attaining the age of superannuation, Shri T. V. Bhavadas, NFSG officer of IES and Director, Regional Evaluation Office of Programme Evaluation Organisation (Planning

Commission), Mumbai retires from Government service w.e.f. 30.06.2011 (A.N.).

S. MUKHERJEE, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 7th July 2011

No. A-32013/02/2011-Adm.-III—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No.-3/1/2011-CS-II(A)(Pt.), dated the 30th May, 2011 and after being relieved of their duties from their respective Cadre Units, the President is pleased to appoint the following regular Private Secretary of CSSS of the Cadre Units mentioned against each as Principal Private Secretary of CSSS in Planning Commission in the scale of (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-) on adhoc basis with effect from the dates mentioned against each for the period upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name of the Officers	Cate-gory	SLY in PS Grade	Cadre where working as regular Private Secretary	Date of joining as PPS on adhoc basis in Planning Commission
(Shri/Smt./Kum.)					
1.	R. V. R. Sesharatnam	Gen.	1998	Expenditure	04.07.2011 (FN)
2.	Bharat Bhushan Bhatnagar	Gen.	1999	—do—	05.07.2011 (FN)

2. The appointment of these officers to the grade of PPS is purely on adhoc basis and shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

P. C. BHARDWAJ, Under Secy.

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 4th July 2011

No. A-19012/41/11-UIDAI—In pursuance of the UIDAI letter's No. A-12013/21(PS)/10/UIDAI dated 18.05.2011 and Ministry of Defence letter No. A-37100/AKS/CAO/A-6(B) dated 30.06.2011, Smt. Lalita Avneesh Tomar, has assumed the charge of Private Secretary in HQ Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi. w.e.f. 01 July, 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- on deputation for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

ARUN KUMAR SARKAR, Dy. Dir. (Estt.)

No. A-19012/42/11-UIDAI—In pursuance of the UIDAI letter No. A-12013/21(SO)/HQ/10/UIDAI dated 11.05.2011 and DoP&T, Office Order No. A-44013/2/2010-Cadre dated 01.07.2011, Shri Gautam Banerjee has assumed the charge

of Section Officer in HQ Unique Identification Authority of India, New Delhi. w.e.f. 04-07.2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

ARUN KUMAR SARKAR, Dy. Dir. (Estt.)

The 6th July 2011

No. A-19012/43/11-UIDAI—In pursuance of the UIDAI letter's No. A-12013/21(PS)/10/UIDAI dated 18.05.2011 and Integrated HQ, Ministry of Defence (Navy) letter No. A-CPT (PP)/1162/14ST dated 04.07.2011, Ms. P. Shailaja, has assumed the charge of Private Secretary in Unique Identification Authority of India, Ro-Delhi, New Delhi. w.e.f. 05 July, 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- on deputation for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

ARUN KUMAR SARKAR, Dy. Dir. (Estt.)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 24th June 2011

No. K-11019/3/2011-US-II—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Adarsh Kumar Goel, Judge of the Punjab & Haryana High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court from 25.06.2011 to 01.07.2011 during the absence of Justice Shri Ranjan Gogoi, Chief Justice, on leave.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 30th June 2011

No. K-11019/3/2011-US-II—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Adarsh Kumar Goel, Judge of the Punjab & Haryana High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court from 02.07.2011 till Justice Shri Ranjan Gogoi, Chief Justice, on leave, resumes the charge of the Chief Justice.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 5th July 2011

No. K-13029/7/2010-US-II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Kumari Nirmaljit Kaur to be an Additional Judge of the Punjab & Haryana High Court for a period of six months with effect from 10th July, 2011.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 2nd June 2011

No. I-12015/1/2008-IPS-IV—In exercise of the power conferred by Sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government allocates following cadres to the candidates allocated to the Indian Police Service on the basis of the results of the Civil Services Examination, 2009 :—

Sl. No.	Rank	Name of the Candidate	Cadre Allocated
1	2	3	4
1.	51	Shri Antrip Sood	Gujarat
2.	79	Ms. Sweta Shrimali	Gujarat
3.	83	Shri Sanjeev Tyagi	Uttar Pradesh
4.	84	Shri V. Vikraman	Tamil Nadu
5.	85	Shri Gagandeep Singla	Rajasthan
6.	86	Shri Vaibhav Krishna	Uttar Pradesh
7.	87	Ms. Deepa S. Mudhol	Karnataka
8.	89	Ms. Meenu Kumari	Bihar
9.	92	Shri Vikas Sharma	Rajasthan
10.	93	Shri Ravi Dhawan	AGMUT
11.	94	Shri Jaipal Singh Rathore	Gujarat
12.	97	Shri Ajit	Madhya Pradesh
13.	102	Shri Vijayarao Chamatapalli	Andhra Pradesh
14.	105	Shri Surendra Kumar Jha	Jharkhand
15.	109	Shri Mitrabhanu Mahapatra	Orissa
16.	110	Shri Mohit Chawla	Haryana Pradesh
17.	112	Shri Saurabh Tripathi	Maharashtra
18.	116	Shri Deepak Barnwal	Bihar
19.	117	Ms. Patil Leena Madhavrao	Gujarat
20.	120	Ms. Benita Mary Jaiker	AGMUT
21.	121	Shri Nirlipt Rai	Gujarat
22.	123	Shri Pulkit Khare	Maharashtra
23.	124	Shri Rayees Mohammad Bhat	Jammu & Kashmir
24.	125	Shri Nyalakonda Prakash Reddy	Andhra Pradesh
25.	126	Shri Lakshmanan S.	Karnataka
26.	131	Ms. Divya V. Gopinath	Karnataka

1	2	3	4	1	2	3	4
27.	132	Ms. Soumya Sambhasiavan	Himachal Pradesh	58.	205	Shri Brijendra Kumar Yadav	AGMUT
28.	133	Shri Pardhi Sourabh Zamsingh	Maharashtra	59.	206	Shri Satyarth Anniruddha Pankaj	Uttar Pradesh
29.	134	Ms. Vinita Sahu	Maharashtra	60.	210	Shri Rahul Kumar	Bihar
30.	136	Shri Prabhakar Chaudhary	Uttar Pradesh	61.	211	Ms. Shweta Chauhan	AGMUT
31.	141	Shri Himanshu Kumar	Uttar Pradesh	62.	213	Shri R. Chethan	Karnataka
32.	142	Shri Rahul Kumar Sinha	Jharkhand	63.	214	Shri Kanwar Vishal Singh	Orissa
33.	144	Shri Abid Khan	Madhya Pradesh	64.	219	Shri Babujee Attada	Karnataka
34.	146	Shri Vishak G.	Tamil Nadu	65.	220	Shri Chaudhari Abhijeet Vishvanath	Karnataka
35.	149	Shri Kuntal Kishore	Uttar Pradesh	66.	223	Shri Saroj Kumar Thakur	Tamil Nadu
36.	151	Shri Gaurav Kumar Tiwari	Madhya Pradesh	67.	228	Shri D. Joel Davis	Andhra Pradesh
37.	154	Ms. Niyati Thaker	Maharashtra	68.	229	Shri Ashish Kumar Singh	Orissa
38.	159	Shri Amit Sharma	AGMUT	69.	231	Shri Siddarth Bahuguna	Tamil Nadu
39.	161	Shri Eish Singhal	AGMUT	70.	232	Shri Ramesh Singh	Assam Meghalaya
40.	164	Shri Aravindhan P.	Tamil Nadu	71.	235	Shri Dheeraj Kumar Gupta	Kerala
41.	165	Shri Ankit Goyal	Maharashtra	72.	236	Shri Sunil Joshi	Orissa
42.	166	Shri Balkwade Shailesh Unmesh	Maharashtra	73.	238	Shri Manish Agrawal	Jammu & Kashmir
43.	167	Shri Sudheer Kumar Reddy Ch.	Karnataka	74.	240	Shri Meghani Dipakkumar Vasudevabhai	Gujarat
44.	170	Ms. Esha Pandey	AGMUT	75.	242	Shri Rajeev Pachar	Rajasthan
45.	173	Mr. Himanshu Shanker Trivedi	Bihar	76.	243	Ms. Parul Gupta	Orissa
46.	174	Ms. Joyeeta Bose	West Bengal	77.	244	Shri Pande Rajiv Omprakash	Jammu & Kashmir
47.	175	Ms. Sarah Sharma	Orissa	78.	245	Shri D. Praveen	Tamil Nadu
48.	176	Shri Nimish Agarwal	Madhya Pradesh	79.	247	Ms. Chandan Chowdhary	Kerala
49.	178	Shri Mithilesh Mishra	Bihar	80.	253	Shri Basavraj Teli	Andhra Pradesh
50.	179	Shri Sagar Singh Kalsi	AGMUT	81.	259	Ms. Sulochana Kumari	Haryana
51.	181	Shri Ashutosh Pratap Singh	Madhya Pradesh	82.	267	Shri Gaurav Singh	Uttar Pradesh
52.	184	Ms. Vartika Katiyar	Karnataka	83.	279	Shri Deshmukh Paris Anil	Rajasthan
53.	188	Shri Rajeev Mishra	Bihar	84.	283	Shri Patil Ketan Baliram	Punjab
54.	190	Shri Kalanidhi Naithani	Uttar Pradesh	85.	284	Shri Annamalai K.	Uttarakhand
55.	191	Shri Rajiv Ranjan Singh	Uttar Pradesh	86.	286	Shri Bhure Sarveshwar Narendra	Orissa
56.	194	Ms. Poonam	Uttar Pradesh	87.	290	Shri Manjunath Bhajantri	Karnataka
57.	197	Shri Rahul Dev Sharma	Andhra Pradesh	88.	292	Shri Chandan Kumar Kushwaha	Bihar

1	2	3	4
89.	297	Shri J. Elanchezhian	Punjab
90.	300	Shri Nimbale Dhamendra Kumar Harsha	Punjab
91.	304	Shri Thiagarajan S. M.	Orissa
92.	305	Shri Hari Prasath S.	Bihar
93.	306	Shri M. Raj Kumar	Maharashtra
94.	308	Shri K. Kannan	West Bengal
95.	309	Shri Harish Chander	Uttar Pradesh
96.	311	Shri K. Siva Subramani	Orissa
97.	316	Ms. Dhurat Saayli Savlaram	Bihar
98.	321	Ms. Kusum Punia	Jharkhand
99.	324	Shri Shailesh	West Bengal
100.	327	Shri P. Murugan	Jharkhand
101.	331	Shri Mohammed Yusuf Qureshi	Madhya Pradesh
102.	342	Shri Ajoy Prasad	West Bengal
103.	347	Shri S. Karthik	Jharkhand
104.	357	Shri Dhananjay Parashuran Ghanawat	Assam Meghalaya
105.	363	Shri Sadanand Kumar	Chhattisgarh
106.	369	Shri Chote Manoj Ratan	Jharkhand
107.	374	Shri Y. S. Ramesh	Jharkhand
108.	380	Shri S. Selvanagarathinam	Manipur-Tripura
109.	381	Shri Patil Shridhar Daulu	Jammu & Kashmir
110.	382	Shri Raghvendra Kumar M. G.	Assam Meghalaya
111.	386	Shri Rakesh Roushan	Assam Meghalaya
112.	388	Shri Naveen S. L.	Haryana
113.	389	Shri Manicka Raj P.	Jammu & Kashmir
114.	404	Shri Rathod Vinit Kumar Trikamal	Rajasthan
115.	415	Shri Kurma Rao M.	Assam Meghalaya
116.	417	Shri Rajveer	Assam Meghalaya
117.	419	Ms. Saraswati R.	Manipur-Tripura

1	2	3	4
118.	420	Shri Girija Shankar Jaiswal	Chhattisgarh
119.	439	Shri Vishal Gunni	Andhra Pradesh
120.	449	Shri D. Kalyana Chakravarthy	Madhya Pradesh
121.	478	Shri S. Selvamurugan	West Bengal
122.	499	Shri Salunkhe Deepak Atmaram	Maharashtra
123.	515	Shri Harjeet Singh	Punjab
124.	535	Shri Yeshey Tshewang Gyatso	Assam-Meghalaya
125.	540	Shri Kiritkumar H. Rathod	Uttar Pradesh
126.	544	Shri Santosh Kumar Meena	AGMUT
127.	552	Shri Shougan Gautam	Uttar Pradesh
128.	565	Shri Jeevan Babu K.	West Bengal
129.	567	Shri S. Arun Prasad	West Bengal
130.	589	Shri Nilesh Tryambak Sawakare	Assam Meghalaya
131.	626	Ms. Ruchika Diwakar	Madhya Pradesh
132.	637	Shri K Sabari Raj Kumar	West Bengal
133.	645	Shri Satendra Kumar	Uttar Pradesh
134.	648	Shri Sanjay Meena	Maharashtra
135.	649	Shri Rajendra Prasad Meena	AGMUT
136.	651	Ms. Sangeeta Rani	Haryana
137.	660	Shri Abhishek Meena	Chhattisgarh
138.	666	Shri Mahendra Bagria	Gujarat
139.	672	Shri Shivhari Meena	Uttar Pradesh
140.	762	Shri Sudheer Kumar Porika	Bihar
141.	771	Ms. Alka Meena	Orissa
142.	772	Shri Jalsingh Meena	Manipur-Tripura
143.	776	Shri Rahul Nath	Himachal Pradesh

INDERJEET KAUR, Dir. (Police)

The 5th July 2011

No. I-14012/13/2010-IPS-IV—In exercise of the powers conferred by Rule-6 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the President is pleased to appoint

the following candidates to the Indian Police Service on probation on the basis of the Civil Services Examination, 2009 with effect from the dates mentioned against their names below :—

Sl. No.	Name of the IPS Probationer	Date of Birth	Date of Appointment to IPS
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	Abhishek Meena	22.03.1983	30.08.2010(FN)
2.	Antrip Sood	28.06.1982	30.08.2010(FN)
3.	Balkawade Shailesh Unmesh	24.06.1984	30.08.2010(FN)
4.	Basavaraj Teli	26.08.1982	30.08.2010(FN)
5.	Brijendra Kumar Yadav	03.09.1976	30.08.2010(FN)
6.	Chandan Kumar Kushwaha	05.08.1981	30.08.2010(FN)
7.	Chetan R.	07.12.1981	30.08.2010(FN)
8.	Chothe Manoj Ratan	30.08.1985	30.08.2010(FN)
9.	D. Kalyana Chakravarthy	19.01.1975	30.08.2010(FN)
10.	Deepak Barnwal	15.06.1982	30.08.2010(FN)
11.	Dheeraj Kumar Gupta	18.05.1984	30.08.2010(FN)
12.	Ms. Dhurat Saayli Savlaram	18.10.1987	30.08.2010(FN)
13.	Eish Singhal	07.12.1984	30.08.2010(FN)
14.	Ms. Esha Pandey	27.02.1984	30.08.2010(FN)
15.	Gagandeep Singla	18.02.1985	30.08.2010(FN)
16.	Gaurav Kumar Tiwari	04.05.1982	30.08.2010(FN)
17.	Gaurav Singh	28.09.1984	30.08.2010(FN)
18.	Hari Prasath S.	03.05.1988	30.08.2010(FN)
19.	Harish Chander	03.05.1988	30.08.2010(FN)
20.	Himanshu Kumar	29.05.1986	30.08.2010(FN)
21.	Ms. Joyeeta Bose	17.11.1979	30.08.2010(FN)
22.	K. Kannan	15.06.1977	30.08.2010(FN)
23.	K. Siva Subramani	19.04.1980	30.08.2010(FN)
24.	Kalanidhi Naithani	24.04.1983	30.08.2010(FN)
25.	Kanwar Vishal Singh	19.04.1982	30.08.2010(FN)
26.	Karthik S.	02.05.1979	30.08.2010(FN)
27.	Kuntal Kishore	05.02.1986	30.08.2010(FN)
28.	Ms. Kushum Punia	12.10.1983	30.08.2010(FN)
29.	Manish Agarwal	15.01.1983	30.08.2010(FN)

1	2	3	4
	S/Shri		
30.	Ms. Meenu Kumari	08.03.1981	30.08.2010(FN)
31.	Meghani Dipakkumar Vasudevbbhai	08.02.1980	30.08.2010(FN)
32.	M. Raj Kumar	26.08.1984	30.08.2010(FN)
33.	Mitrabhanu Mahapatra	05.07.1985	30.08.2010(FN)
34.	Mohammed Yusuf Qureshi	18.08.1978	30.08.2010(FN)
35.	Mohit Chawla	13.01.1982	30.08.2010(FN)
36.	Nirlipt Rai	28.02.1983	30.08.2010(FN)
37.	Ms. Niyati Thaker	15.03.1982	30.08.2010(FN)
38.	P. Murugan	16.04.1978	30.08.2010(FN)
39.	Ms. Patil Leena Madhavrao	03.08.1980	30.08.2010(FN)
40.	Prabhakar Chaudhary	01.01.1984	30.08.2010(FN)
41.	Rajendra Prasad Meena	10.12.1981	30.08.2010(FN)
42.	Rajiv Ranjan Singh	24.09.1985	30.08.2010(FN)
43.	Rakesh Roushan	15.01.1978	30.08.2010(FN)
44.	Ramesh Singh	19.09.1979	30.08.2010(FN)
45.	S. Selvamurugan	24.05.1977	30.08.2010(FN)
46.	S. Selvanagarathinam	31.05.1986	30.08.2010(FN)
47.	Sadanand Kumar	01.01.1979	30.08.2010(FN)
48.	Sagar Singh Kalsi	20.10.1982	30.08.2010(FN)
49.	Ms. Sarah Sharma	23.07.1983	30.08.2010(FN)
50.	Saroj Kumar Thakur	02.01.1982	30.08.2010(FN)
51.	Satyarth Aniruddha Pankaj	28.02.1980	30.08.2010(FN)
52.	Saurabh Tripathi	11.06.1983	30.08.2010(FN)
53.	Siddharth Bahuguna	21.12.1982	30.08.2010(FN)
54.	Ms. Soumya Sambasivan	24.03.1980	30.08.2010(FN)
55.	Sudheer Kumar Reddy Ch.	22.03.1983	30.08.2010(FN)
56.	Surendra Kumar Jha	05.07.1983	30.08.2010(FN)
57.	Ms. Sweta Shrimali	13.04.1985	30.08.2010(FN)
58.	V. Vikraman	12.06.1983	30.08.2010(FN)
59.	Ms. Vartika Katiyar	24.03.1986	30.08.2010(FN)
60.	Vijayarao Chamatapalli	18.06.1982	30.08.2010(FN)
61.	Ms. Vinita Sahu	10.09.1984	30.08.2010(FN)
62.	Yeshey Tshewang Gyatso	15.02.1985	30.08.2010(FN)

1	2	3	4
	S/Shri		
63.	Pandey Rajiv Omprakash	13.08.1983	30.08.2010(FN)
64.	Ms. Chandan Chowdhary	14.12.1979	30.08.2010(FN)
65.	Ms. Sarswati R.	17.05.1983	30.08.2010(FN)
66.	Girija Shankar Jaiswal	30.06.1983	30.08.2010(FN)
67.	Vaibhav Krishna	12.12.1983	01.12.2010(FN)
68.	Rayees Mohammad Bhat	21.09.1983	01.12.2010(FN)
69.	Abid Khan	16.09.1983	20.12.2010(FN)
70.	Ajit	25.02.1983	20.12.2010(FN)
71.	Ajoy Prasad	21.10.1984	20.12.2010(FN)
72.	Ms. Alka Meena	10.07.1982	20.12.2010(FN)
73.	Amit Sharma	19.08.1984	20.12.2010(FN)
74.	Ankit Goyal	05.12.1984	20.12.2010(FN)
75.	Annamalai K.	04.06.1984	20.12.2010(FN)
76.	Ashutosh Pratap Singh	20.11.1982	20.12.2010(FN)
77.	Ashish Kumar Singh	20.01.1984	20.12.2010(FN)
78.	Babujee Attada	20.02.1982	20.12.2010(FN)
79.	Ms. Benita Mary Jaiker	31.07.1985	20.12.2010(FN)
80.	Bhure Sarveshwar Narendra	12.09.1984	20.12.2010(FN)
81.	Chaudhari Abhijeet Vishvanath	10.05.1984	20.12.2010(FN)
82.	D. Joel Davis	06.12.1981	20.12.2010(FN)
83.	D. Praveen	25.01.1981	20.12.2010(FN)
84.	Ms. Deepa S. Mudhol	27.11.1985	20.12.2010(FN)
85.	Deshmukh Paris Anil	30.07.1985	20.12.2010(FN)
86.	Dhananjay Parashuram Ghanawat	10.04.1980	20.12.2010(FN)
87.	Ms. Divya V. Gopinath	27.05.1982	20.12.2010(FN)
88.	Harjeet Singh	22.01.1978	20.12.2010(FN)
89.	Himanshu Shanker Trivedi	25.07.1982	20.12.2010(FN)
90.	J. Elanchezhian	07.06.1981	20.12.2010(FN)
91.	Jaipal Singh Rathore	09.02.1981	20.12.2010(FN)
92.	Jalsingh Meena	10.07.1980	20.12.2010(FN)
93.	Jeevan Babu K.	14.01.1981	20.12.2010(FN)
94.	K. Sabari Raj Kumar	12.12.1981	20.12.2010(FN)
95.	Kurma Rao M.	11.04.1980	20.12.2010(FN)
96.	Lakshmanan S.	26.10.1980	20.12.2010(FN)

1	2	3	4
	S/Shri		
97.	Mahendar Bagria	19.07.1982	20.12.2010(FN)
98.	Manicka Raj P.	31.05.1985	20.12.2010(FN)
99.	Manjunath Bhajantri	05.06.1979	20.12.2010(FN)
100.	Mithilesh Mishra	01.01.1982	20.12.2010(FN)
101.	Naveen S. L.	25.03.1982	20.12.2010(FN)
102.	Nilesh Tryambak Sawakare	03.07.1982	20.12.2010(FN)
103.	Nimish Agarwal	09.08.1984	20.12.2010(FN)
104.	Nimbale Dharmendrakumar Harshadray	03.07.1979	20.12.2010(FN)
105.	Nyalakonda Prakash Reddy	30.11.1984	20.12.2010(FN)
106.	Pardhi Sourabh Zamsingh	23.06.1986	20.12.2010(FN)
107.	Ms. Parul Gupta	14.10.1986	20.12.2010(FN)
108.	Patil Ketan Baliram	27.04.1982	20.12.2010(FN)
109.	Patil Shridhar Daulu	27.12.1985	20.12.2010(FN)
110.	Ms. Poonam	07.06.1983	20.12.2010(FN)
111.	Pulkit Khare	09.02.1984	20.12.2010(FN)
112.	Raghavendrakumar M. G.	03.01.1980	20.12.2010(FN)
113.	Rahul Dev Sharma	19.09.1985	20.12.2010(FN)
114.	Rahul Kumar	06.03.1987	20.12.2010(FN)
115.	Rahul Kumar Sinha	22.12.1983	20.12.2010(FN)
116.	Rajeev Mishra	16.05.1982	20.12.2010(FN)
117.	Rajeev Pachar	12.09.1979	20.12.2010(FN)
118.	Rajveer	10.01.1980	20.12.2010(FN)
119.	Rathod Kiritkumar Haribhai	19.05.1979	20.12.2010(FN)
120.	Rathod Vinitkumar Triklmlal	17.06.1985	20.12.2010(FN)
121.	Ravi Dhawan	29.08.1987	20.12.2010(FN)
122.	Ms. Ruchika Diwakar	20.12.1984	20.12.2010(FN)
123.	S. Arun Prasad	27.07.1985	20.12.2010(FN)
124.	Ms. Sangeeta Rani	20.02.1980	20.12.2010(FN)
125.	Sanjay Meena	12.07.1983	20.12.2010(FN)
126.	Sanjeev Tyagi	15.12.1986	20.12.2010(FN)
127.	Satendra Kumar	28.03.1983	20.12.2010(FN)
128.	Shailesh	23.06.1979	20.12.2010(FN)

1	2	3	4
	S/Shri		
129.	Santosh Kumar Meena	01.02.1985	20.12.2010(FN)
130.	Salunkhe Deepak Atmaram	09.06.1984	20.12.2010(FN)
131.	Shivhari Meena	21.06.1977	20.12.2010(FN)
132.	Shogun Gautam	21.08.1983	20.12.2010(FN)
133.	Ms. Shweta Chauhan	02.04.1981	20.12.2010(FN)
134.	Sudheer Kumar Porika	26.11.1979	20.12.2010(FN)
135.	Ms. Sulochana Kumari	01.10.1985	20.12.2010(FN)
136.	Sunil Joshi	03.09.1985	20.12.2010(FN)
137.	Thiyagarajan S. M.	20.12.1984	20.12.2010(FN)
138.	Vikas Sharma	16.08.1985	20.12.2010(FN)
139.	Vishak G.	16.04.1987	20.12.2010(FN)
140.	Vishal Gunni	22.05.1982	20.12.2010(FN)
141.	Y. S. Ramesh	06.10.1979	20.12.2010(FN)

INDERJEET KAUR, Dir. (Police)

New Delhi, the 5th July 2011

No. A-20/G/3188-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Raj Kumar Singh, IAS (BH:1975), as Home Secretary in the Ministry of Home Affairs, with effect from the afternoon of 30th June, 2011, until further orders.

J. B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 5th July 2011

No. 14016/1/2010-UTS-II—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs appoints the following Inspectors of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) in the Scale of Pay of Rs. 9,300—34,800/- (Grade Pay Rs. 4,800/-) with immediate effect on probation for a period of two years :—

Sl. No.	Name	Range No.	Date of Birth
	S/Shri		
1.	Raj Kumar	D-I/1056	14.01.1958
2.	Harsh Mittar	D-I/753	12.12.1956
3.	Har Charan Verma	D-I/629	13.10.1957
4.	Dharamvir Singh	D-I/755	20.03.1957
5.	Ashok Kumar Sharma	D-I/756	20.06.1956

2. The appointment of the abovementioned 5 Inspectors of Delhi Police into Entry Grade of DANIPS would be subject to the outcome of CWP No. 4210/2007—Jagdish Chand Versus Union of India and Another.

3. However, before effecting the said order, the Delhi Police may ensure that the aforesaid Inspectors continue to remain free from vigilance angle.

VYOMESH PANT, Section Officer

New Delhi-110001, the 11th July 2011

No. I-18011/7/2011/IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Sabya Sachi Raman Mishra, IPS (WB-2004), in the Indian Police Service with effect from 06.09.2006.

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 30th June 2011

No. 2/73/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Naveen Bagotra as Private Secretary on ad hoc basis in the Ministry of Development of North Eastern Region with effect from the forenoon of 19.05.2011 for a period upto 30.09.2011 or till the regular Steno Gr. 'A&B' (Merged) (PS) of CSSS are made available, whichever is earlier.

L. B. TUOLTE, Under Secy.

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES

New Delhi-110001, the 6th July 2011

No. A-19013/01/2008-AR(Ad.I)—Consequent upon inclusion of his name in the Central Secretariat Service Senior Selection Grade (Director) Select List for the year 2011 vide Department of Personnel & Training's Office Order No. 3/2/2011-CS.I(D) dated 01.07.2011, the President is pleased to appoint Shri S. A. Rahim as Director in the Department of Administrative Reforms & Public Grievances on regular basis with effect from the forenoon of 1st July, 2011.

HEMANT VERMA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 10th June 2011

No. Q/PB-II/584/1/2010—In pursuance of Ministry's OM No. Q/CAD/584/4/2011 dated 12th May 2011, the President is pleased to appoint the following officers belonging to Grade II Stenographers' Cadre of IFS (B) to officiate in

Grade I of Stenographers' Cadre of IFS (B) with effect from the date mentioned against each :—

Select List for the year 2010-11 (Supplementary)

Sl. No.	Name	D.O.B.	Date of promotion	Present place of posting/ deployment
1.	S/Shri Purnima Ramakrishna	10.02.67	05.05.2011 (F/N)	JS (ERS)
2.	M. S. Prasad	10.07.61	05.05.2011 (F/N)	EOI, The Hague
3.	Rajesh Kumar	20.08.67	05.05.2011 (F/N)	EOI, Hanoi
4.	Swapan Kumar Masid	08.01.59	05.05.2011 (F/N)	HCI, London
5.	Anima Kujur	21.04.69	05.05.2011 (F/N)	EOI, Paris

Select List for the year 2011-12 (Regular)

1.	Manjeet Kaur Saini	11.12.60	05.05.2011 (F/N)	HCI, Dublin
2.	Arvinder Singh	10.04.71	05.05.2011 (F/N)	PMI, New York
3.	Munisha Behera	10.11.71	05.05.2011 (F/N)	EOI, Havana
4.	Rahul Bhiwaji Gajbiye	01.12.70	05.05.2011 (F/N)	EOI, Yangon
5.	Raman Kumar	11.06.70	05.05.2011 (F/N)	EOI, Paris

2. The other terms and conditions of the appointment will be the same as applicable to other officers of Grade-I of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B).

NIRAJ KR. JAISWAL, Admin. Officer (PB-II)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 21st June 2011

No. 49 (F. No. 50/150/2008-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Julius Choranth, a regular Assistant of the Finance Cadre of the Central Secretariat Service (CSS) as Section Officer of the CSS on ad hoc basis in the Department of Revenue w.e.f. 16.06.2011 (FN) and until further orders.

2. The ad hoc promotion of Shri Julius Choranth would initially be upto 30.06.2011 or until further orders. The ad hoc appointment of Shri Julius Choranth will be subject to the following terms and conditions :—

- (i) Ad hoc appointments, being a stop-gap arrangement, shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade;
- (ii) Ad hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer Grade are

available either through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) or until further order.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 28th June 2011

No. 50 (F. No. A.19013/10/2011-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Vipul Agarwal (IRS:IT) as Under Secretary in the Central Board of Direct Taxes of the Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 18.05.2011 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 51 (F. No. A.19013/11/2011-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri P. S. Sivasankaran (IRS:IT) as Under Secretary in the Central Board of Direct Taxes of the Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 18.05.2011 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 1st July 2011

No. 52 (F. No. A.19011/09/2011-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri R. S. Gujral, IAS (HY:76) as Secretary to the Government of India in the Department of Revenue, Ministry of Finance with effect from 30.06.2011 (AN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 4th July 2011

No. 54 (F. No. A.38011/1/2011-Ad.I)—Shri Sunil Mitra, an officer of the Indian Administrative Service (WB:75), posted as Finance Secretary and Secretary (Revenue) in the Department of Revenue retired from Government Service on 30th June, 2011 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 55 (F. No. A.19011/10/2011-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri S. K. Lohani, an officer of the Central Secretariat Service (CSS:1980) as Joint Secretary in the Department of Revenue in the pay band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from 01.07.2011 (FN), till the date of his superannuation i.e. upto 31.07.2014 or until further orders, whichever event takes place earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 6th July 2011

No. A. 12011/3/2011-Admn.II—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 5/3/2010-

CS.I(U) dated 15.06.2011 and in continuation of this Department's Notification No. A. 12011/4/2010-Admn.II dated 08.06.2010, 08.07.2010, 21.09.2010, 27.09.2010, 15.10.2010, 08.11.2010 and 08.12.2010, the President is pleased to extend the appointment of the following Under Secretaries in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance on ad hoc basis upto 31.05.2012 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of Officer	CSL No.
	S/Shri	
1.	Ashok Kumar	6328
2.	Praveen Kumar Dudeja	6332
3.	Sanatan	6389
4.	Biswabandan Senapati	6393
5.	Mrityunjay Jha	6416
6.	C. K. Ramaswamy	6455
7.	Devendra Singh Gaur	6471
8.	Syed Ali Sabeer	6495
9.	Jitender Malik	6506
10.	Arun Sobti	6582
11.	Ms. Urmila Rawat	6713
12.	Abhay Kumar Sharan	6678
13.	Anurag Krishan Bhatnagar	6723
14.	Ranjeet Kumar Sinha	6727
15.	Ujjwal Kumar	6709
16.	Sudhira Kumar Samantaray	6821
17.	Ms. Jyotsna Gupta	6829

2. The aforesaid appointment is subject to other conditions mentioned in this Department's Notification referred to above.

SAGAR MEHRA, Dir.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 8th July 2011

No. A-19011/1/2010-Ad.IV—In exercise of the powers conferred under Rule 8A of Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993 as amended from time to time, the Central Government is pleased to appoint Smt. Vimla Yadav, Member (Technical), Company Law Board, the senior most Member of the Board, to officiate as Chairman, Company Law Board, during the leave period of Justice Shri D. R.

Deshmukh, Chairman, Company Law Board from 16.5.2011 to 15.7.2011 or until further orders.

RAJINDER SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 6th July 2011

No. A-32014/6/2010-Cadre—The President is pleased to appoint Smt. Urmil Pannu, Steno Grade 'C' of CSSS of this cadre to the post of Private Secretary of CSSS in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-) in Supply Division on ad hoc basis for the period upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis, or further orders, whichever is earlier, w.e.f. 1st July, 2011 (Forenoon).

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 28th June 2011

No. 5/2011 (F. No. A-11013/01/2008/HRD-I/2464—Sanction of the President is hereby accorded to the encadrement of the five posts of Director Level in Directorate of Anti Dumping (to be re-designated as Directorate General of Trade Remedies) under Department of Commerce into Indian Trade Service Group 'A' in the Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/- in the Ministry of Commerce and Industry with effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

2. This issues with the concurrence of Department of Commerce vide Order No. A-11013/1/2007-E.III dated 10th May 2011.

ANUP K. PUJARI, Dir. Gen. of Foreign Trade
and Ex-officio Addl. Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi, the 30th June 2011

No. A-19011/739/2009-E.I—On attaining the age of superannuation Shri R. S. Garg, CSS, Director in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 30th June, 2011.

L. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 30th June 2011

No. A-12023/04/2009-E.I—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of the following Section Officers of CSS as Under Secretary (Grade-I of CSS) for the period upto 31.05.2012, or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier, in the Department of

Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry :—

Sl. No.	Name of Officer	CSL No.	Min./Deptt. where posted as SO before joining DIPP
1.	Sh. Siddhartha Buchchan	6380	Ministry of Defence
2.	Sh. Rajesh Kumar	6481	Ministry of Defence
3.	Sh. Sanjay Kumar Lal	6517	Legislative Department
4.	Sh. Devendra Singh Parihar	6523	Ministry of Defence
5.	Smt. Gurpreet Gadhok	6544	UPSC
6.	Sh. Arun Kumar	6615	Ministry of Defence
7.	Sh. Sanjiv Kumar Sehgal	6622	Ministry of Social Justice and Empowerment
8.	Sh. S. N. Mishra	6711	DOPT
9.	Sh. Gokul Nagarkoti	6703	M/o Urban Development
10.	Sh. Lalit Kumar Sharma	6823	DOPT

The extension of the ad hoc appointment upto 31.05.2012 is further subject to the conditions laid down in Department of Personnel & Training Orders No. 5/3/2010-CS.I(U) dated 26th May, 2010, 3rd September, 2010 and 11th November, 2010.

S. K. AHLUWALIA, Dy. Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 1st July 2011

No. A-19011/11/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Sh. Rakesh Kacker, IAS (TN: 77) as Secretary, Ministry of Food Processing Industries.

Sh. Rakesh Kacker, IAS (TN: 77) has assumed charge of the post of Secretary in the Ministry of Food Processing Industries from the forenoon of 1st July, 2011.

SANJAI BAJPAI, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 23rd May 2011

No. 17016/19/97-IFS.II(Pt.)—In exercise of the powers conferred under sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government with the concurrence of the State Governments of Maharashtra and Madhya Pradesh hereby transfer Shri Ashok Kumar, IFS (MS : 2006) from Maharashtra cadre to Madhya Pradesh cadre of the Indian Forest Service with immediate effect.

S. S. BADHAWAN, Dir. (IFS)

No. 17016/19/97-IFS.II(Pt.)—In exercise of the powers conferred under sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government with the concurrence of the State Government of Madhya

Pradesh and AGMUT cadre hereby transfer Smt. Rakhi Nanda, IFS (AGMUT : 2007) from AGMUT cadre to Madhya Pradesh cadre of the Indian Forest Service with immediate effect.

S. S. BADHAWAN, Dir. (IFS)

New Delhi-110003, the 15th March 2011

No. A-19011/2/2011-P.II (.)—The President is pleased to appoint Shri Aniruddhe Mukerjee, IAS (MP : 93) as Director in the Ministry of Environment and Forests in PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of 14th March, 2011 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

M. M. PANDEY, Under Secy.

New Delhi-110003, the 15th April 2011

No. A-32012/03/2010-P.II (.)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/12/2010-CS.II (A) dated 25th March, 2011, the President is pleased to appoint Shri Satish Kumar Sharma, Principal Private Secretary of CSSS in this Ministry to the Senior Principal Private Secretary (Sr. PPS) Grade of CSSS for the Select List Year 2010 in the Scale of Pay of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/- in the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of 25th March, 2011.

M. L. WADHWANI, Under Secy.

The 24th May 2011

No. A-32012/2/2005-P.II (.)—Consequent upon their promotion to the post of Principal Private Secretary (PPS) on adhoc basis and nomination to Ministry of Environment and Forests by the Department of Personnel & Training vide their O.M. No. 3/1/2011-CS.II (A) dated 29.03.2011, the President is pleased to appoint the following Private Secretaries of the CSSS cadre of the Ministry/Department mentioned against their names, as Principal Private Secretary of CSSS in the Scale of Pay of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- purely on adhoc basis in the Ministry of Environment & Forests with effect from date mentioned against their names, for a period upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Officers	Cadre from where nominated to MoEF	Joining date
(S/Shri/Smt.)			
1.	Pradeep Kumar	Defence	29.04.2011 (F/N)
2.	Jagjit Singh	Corporate Affairs	29.04.2011 (A/N)
3.	R. K. Mittal	I & B	27.04.2011 (F/N/)
4.	A. K. Tripathi	Expenditure	02.05.2011 (F/N)
5.	R. K. Jindal	Rural Development	12.05.2011 (F/N)

2. The appointment of these officers to the grade of PPS is purely on adhoc basis and shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or claim seniority in the grade of PPS.

3. This supersedes the earlier notification of even number dated 24.05.2011.

M. L. WADHWANI, Under Secy.

The 1st July 2011

No. A-38011/10/2011-P.II—Consequent upon attaining the age of superannuation Smt. Surinder Kaur Babbra, SO in the Ministry of Environment and Forests has superannuated from Government Service from the afternoon of 30th June 2011.

M. L. WADHWANI, Under Secy.

No. A-32012/01/2010-P.II (.)—In pursuance of Department of Personnel and Training's O. M. No. 4/2/2011-CS.II(A) dated 31st March, 2011 and 13th April, 2011, the President is pleased to appoint the following Stenographers Grade 'C' of CSSS cadre of this Ministry to the grade of Private Secretary (PS) of CSSS on adhoc basis in the PB-2 (9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Ministry of Environment and Forests with effect from the dates mentioned against their names, for the period upto 30.09.2011 or till the regular PS become available, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Officers	Date of joining
	(S/Shri/Smt.)	
1.	K. L. Vasishth	29.06.2011 (F/N)
2.	P. P. S. Chawala	01.07.2011 (F/N)
3.	Amit Munjal	29.06.2011 (F/N)
4.	Navneet Kumar	29.06.2011 (F/N)
5.	Suneel Kumar	29.06.2011 (F/N)
6.	Narayan Dutt	29.06.2011 (F/N)
7.	Meenakshi Sawhney	29.06.2011 (F/N)
8.	Sunil Kumar	29.06.2011 (F/N)
9.	Rajneesh	29.06.2011 (F/N)
10.	B. D. Belwal	29.06.2011 (F/N)
11.	V. P. Bhatt	01.07.2011 (F/N)
12.	Hemant	01.07.2011 (F/N)

2. The adhoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of PS of CSSS for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS CSSS.

M. L. WADHWANI, Under Secy.

The 4th July 2011

No. 11014/1/2009-P.II (.)—The President is pleased to appoint Shri R. Vineel Krishna, IAS (OR : 2005) as Private Secretary to the Minister of State (Independent Charge) for Environment and Forests (Sh. Jairam Ramesh) at the level of Under Secretary w.e.f. the forenoon of 1st July, 2011 for a period of five years or until further orders, whichever event occurs the earliest.

M. L. WADHWANI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 28th June 2011

No. A-12025/1/2009-DFQC—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Satyapal Shani, Flat No. 52, Plot No. 31, Suruchi Apartment, Sector-10, Dwarka, New Delhi to the post of Deputy Drugs Controller (India) in the Central Drugs Standardization Control Organisation under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare on direct recruitment basis in the revised pay structure PB-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 7,600/- (Group 'A' Gazetted) plus admissible allowances in a temporary capacity with effect from the date of joining the post and until further orders.

2. Shri Satyapal Shani will be on probation for a period of one year.

SUDHIR KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 1st July 2011

No. A-38012/05/2011-Estt.-I—On attaining the age of superannuation Sh. Mohammad Saleem, working as Under Secretary, in the Ministry of Health & Family Welfare, has retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th June, 2011.

ANIL KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 14th June 2011

No. 32011/01/2009-Estt. II—With the approval of the Competent Authority, Shri R. R. Sharma, a regular Senior Technical Assistant (Crops) in the Department of Agriculture & Cooperation is appointed as Assistant Director (Crops) in the Pay Band-2 in the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- on regular promotion basis in the Department of Agriculture & Cooperation with effect from the forenoon of June 10th, 2011.

K. SANJAYAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING
AND FISHERIES

New Delhi, the 7th July 2011

No. A-19011/10/2008-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Kejrewal, Deputy Secretary as Director in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries in the Scale of Pay of PB-4, Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Rs. 8,700/- (Grade Pay) w.e.f. the forenoon of 1st July, 2011 consequent upon inclusion of his name in the Senior Selection Grade of Central Secretariat Service for the Select List Year of 2011 vide DoP&T's Office Order No. 3/2/2011.CS.I(D), dated 1st July, 2011.

SUBHASH CHAND KHATRI, Under Secy.

New Delhi, the 8th July 2011

No. 2-1/2006-Fy(Admn)—The President is pleased to accept the resignation tendered by Shri Shravan Kumar from the post of Service Engineer (Mechanical) [(General Central Service Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial)] in Fishery Survey of India, Mumbai from the date of 7th February, 2009.

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH &
EDUCATION

New Delhi, the 5th July 2011

No. 30-15/2011-Estt.—The President is pleased to discontinue the services of Shri R. N. Gautam, as Assistant Private Secretary to the Hon'ble Minister of State for Agriculture and Food Processing Industries (Shri Harish Rawat) w.e.f. the forenoon of 09.06.2011.

VIJAY SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-110114, the 5th July 2011

No. A-32014/01/2010-E.II—The President is pleased to appoint Smt. Sarla Arya, a regular Stenographer Grade 'C' of this Ministry, as Stenographer Grade 'A&B' (Merged) Private Secretary grade (Group 'B' Gazetted) of CSSS cadre of the Ministry of Rural Development, in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- on ad hoc basis with effect from the afternoon of 30th June, 2011 and until further orders.

GEORGE Y., Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 11th March 2011

No. A-32013/3/2005-E-III—In pursuance of the Department of Personnel and Training's O.M. No. 20/31/

2010-CS.II dated 30.11.2010, the President is pleased to appoint Sh. Sampuran Singh, PS belonging to CSSS Cadre of Planning Commission, as Principal Private Secretary in the Cadre of Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) on ad hoc basis with effect from the forenoon of 08.12.2010 to 30.06.2011 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders.

SANJAY GUPTA, Under Secy.

The 9th May 2011

No. A-32013/1/2011-E-III—In pursuance of the Department of Personnel and Training's O.M. No. 3/1/2011-CS.II(A) dated 29.03.2011, the President is pleased to appoint the following regular PSs belonging to CSSS Cadre of Ministry of Human Resource Development, as Principal Private Secretary in the same Cadre in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) on ad hoc basis with effect from the forenoon of 25.04.2011 to 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders :—

Sl. No.	Name	Ministry where working	Ministry where nominated
1.	Smt. G. K. Talwar	Ministry of HRD	Ministry of HRD (DSE&L)
2.	Sh. G. Anil Kumar	Ministry of HRD	Ministry of HRD (DHE)

SANJAY GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 6th June 2011

No. 5-8/2007-Admn.—Consequent upon nomination for appointment to Steno Grade 'A&B' (Merged) and her inclusion in the Select List 2006 of CSSS vide DoPT's OM No. 5/12/2008-CS.II dated 3rd September, 2009, the President is pleased to appoint Smt. Pushpa Narang as Steno Grade 'A&B' (merged) in the CSSS Cadre of Ministry of Women & Child Development cadre unit with effect from the forenoon of 25.04.2011.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 24th June 2011

No. 2-1/2009-Admn.—In pursuance of DoPT, EO Office's OM No. 31/11/2010-EO(MM.I) (Part.I) dated 16th June, 2011 the President is pleased to appoint Shri Y. M. Pande, an Officer of Central Secretariat Services, as Officer on Special Duty (OSD) (Deputy Secretary level) to Smt. Krishna Tirath, Minister of State for Women and Child Development (Independent Charge) in PB-3, Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- for a period from 07.04.2011 to 28.02.2015, i.e. the balance period of 10 years limit for functioning of the personal staff of Council of Ministers, on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to

function as OSD to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 1st July 2011

No. A-19012/03/2005-Estt.—Shri Ashok Verma, Section Officer, Ministry of Culture, has retired from the Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 30th June, 2011 (AN).

VANITA SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 30th June 2011

No. 19011/15/2008-Estt.—On attaining the age of superannuation Smt. Kulvinder Malik, Senior Accounts Officer in the Ministry of Tribal Affairs retires from the Government Service on superannuation with effect from the afternoon of 30.06.2011.

A. K. SAHA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 3rd February 2011

No. PF 614/Admn.I—The President is pleased to appoint Shri S. R. Rao, IAS (GJ:78), as Additional Secretary, Department of Telecommunications, Ministry of Communications & Information Technology with effect from the forenoon of 3rd February, 2011.

ANIL KUMAR, Dir. (Admn.)

The 11th February 2011

No. PF 571/Admn.I—In pursuance of DoP&T's Order No. 12/2/2011-EO (SM.I) dated 2.2.2011, the President is pleased to appoint Shri Ajay Bhattacharya, IAS (TN:77), as Administrator, USOF, Department of Telecommunications, Ministry of Communications & Information Technology in the rank and pay of Secretary on in-situ elevation basis w.e.f. 1st February, 2011 by temporarily upgrading the post of Administrator, USO Fund.

ANIL KUMAR, Dir. (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 6th July 2011

No. ERB-I/2011/218—Smt Geeta Shama, Principal Private Secretary of Railway Board Secretariat Stenographers' Service (RBSSS) has been promoted as Senior Principal

Private Secretary of Railway Board Secretariat Stenographers' Service (RBSSS) in the Pay Scale of Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 07.04.2011.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 7th July 2011

No. ERB-I/2011/2/9—The President is pleased to appoint Shri A. K. Misra, HAG/IRSSE, Adviser (Telecom), Railway Board as Additional Member (Telecom), Railway Board on promotion to Grade Rs. 75,500—80,000/- with effect from the forenoon of 24.06.2011.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2011/2/20—The President is pleased to appoint Shri Mahesh Kumar, HAG/IRSSE, Adviser (Signal), Railway Board as Additional Member (Signal), Railway Board on promotion to Grade Rs. 75,500—80,000/- with effect from the forenoon of 24.06.2011.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi-110001, the 4th July 2011

No. A-12025/1/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Shri R. K. Chhibber, Assistant Chartering Officer as Chartering Officer in the Ministry of Shipping, in the Scale of Pay of Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 7,600/- (Grade Pay) on promotion on regular basis with effect from 1.7.2011 (F.N.).

A. M. VIJAYAN, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 29th June 2011

No. A-12023/3/2011-E-I—The President is pleased to appoint Shri Hemant Chaudhary, Principal, ITI, Dahod, Labour and Employment Department, Government of Gujarat, as Assistant Private Secretary to the Hon'ble Minister of State for Road Transport & Highways (Dr. Tushar A. Chaudhary) in Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- Grade Pay on co-terminus/deputation basis w.e.f. 04.02.2011 (F.N.) until further orders or till the Minister desires his services or demits the office, whichever is the earliest.

H. R. MEENA, Under Secy.

No. A-19011/4/11-E.I—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No. 12016/3/JAG/2010-ISS dated 07.03.2011, the President is

pleased to appoint Shri Hansraj Yadav, (ISS) presently working as Joint Director on ad hoc basis in the Ministry of Road Transport & Highways as Joint Director (JAG) on regular basis in Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 7,600/- (Grade Pay) w.e.f. 07.03.2011.

H. R. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 30th June 2011

No. 24/2011 (F.No. 5/6/2008-Adm.II)—Consequent upon their promotions to Principal Private Secretary of CSSS on ad hoc basis vide Department of Personnel & Training's OM. No. 3/1/2011-CS.II(A) dated 29.03.2011 and nomination to Ministry of Power cadre of CSSS, the President is pleased to appoint the following regular Private Secretaries of CSSS to the post of Principal Private Secretary on ad hoc basis in the Ministry of Power cadre of CSSS in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-), with effect from the dates mentioned against each, for a period upto 30.09.2011 or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Date of appointment	Posting
	S/Shri		
1.	S. Dattatreya	19.04.2011 (F/N)	CEA
2.	R. K. Piplani	13.05.2011 (F/N)	CEA
3.	Dinesh Sachdeva	11.05.2011 (F/N)	CEA
4.	Rajender Kumar Kapil	29.03.2011 (F/N)	CEA
5.	Smt. Naresh Chopra	06.04.2011 (F/N)	MNRE
6.	Smt. Manju Sharma	11.04.2011 (F/N)	MOP
7.	V. K. Manchanda	01.04.2011 (F/N)	CEA
8.	Smt. Swarn Lata	11.04.2011 (F/N)	MOP
9.	Smt. B. Sandhya	05.05.2011 (F/N)	CEA
10.	Bhoop Singh	07.04.2011 (F/N)	MOP
11.	Jitender Bhagat	11.04.2011 (F/N)	MNRE
12.	Mahesh Kumar Gupta	19.04.2011 (F/N)	CEA
13.	Smt. S. Radha Gangadharan	07.04.2011 (F/N)	CEA
14.	Smt. Anju Vij	28.04.2011 (F/N)	MNRE
15.	Ms. Sneha Lata Jwas	11.04.2011 (F/N)	MOP
16.	Naresh Chibber	06.04.2011 (A/N)	MOP
17.	Smt. Subhash Kumari Kailay	28.04.2011 (F/N)	MNRE
18.	P. S. Bhandari	29.03.2011 (F/N)	MOP
19.	A. Sethumadhavan	29.03.2011 (F/N)	CEA
20.	V. Richards	29.03.2011 (F/N)	MNRE

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

The 1st July 2011

No. 25/2011 (F.No. 12/01/2011-Adm.II)—On attaining the age of superannuation, Shri Kishan Chand Sharma, Section Officer, Ministry of Power, retired from Government Service on the afternoon of 30th June 2011.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 6th July 2011

No. 6/270/95-Admn.I—Consequent upon his promotion to the post of Principal Private Secretary Grade (ad hoc) of CSSS cadre vide DoPT's OM No. 3/1/2011-CS-II (A) dated 29.3.2011, the President is pleased to appoint Shri V. Richard, Private Secretary of Grade "A&B" (Merged) of CSSS Cadre to the post of Principal Private Secretary on ad hoc basis in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from 29.3.2011.

SURESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 30th June 2011

No. 301/12/2009-F(F)—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Ms. Tanu Rai (OBC) to the post of Deputy Director in the Directorate of Film Festivals, New Delhi in the Scale of Pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 27th June, 2011.

2. Ms. Tanu Rai has been medically examined and found fit for Government Service.

3. Ms. Tanu Rai will be on probation for a period of one year from the date of her appointment.

S. NAGANATHAN, Under Secy.

New Delhi, the 30th June 2011

No. A-12025/5/2006-IIS (Vol. II)—On the basis of the results of the Civil Services Examination 2007 (Supplementary List), the President is pleased to appoint the following candidates in the Junior Grade of Indian Information Service, Group 'A' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Pre-revised Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/-) with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Candidates	Rank No.	Date of appointment
1	2	3	4
1.	Sh. Nilesh Kumar Kalbhor	661	09.05.2011 (FN)
2.	Sh. Paramdeep Singh	664	09.05.2011 (FN)

1	2	3	4
3.	Sh. Santosh Gopal Ajmera	667	10.05.2011 (FN)
4.	Ms. Keerti Tiwari	668	09.05.2011 (FN)
5.	Sh. Sidharth Babanrao Bodke	675	10.05.2011 (FN)
6.	Sh. Mullangi Nanda Kishore	686	23.05.2011 (FN)
7.	Sh. Mahesh Kumar	682	12.05.2011 (FN)
8.	Ms. Navneet Kaur	693	12.05.2011 (FN)
9.	Sh. Varun Bhardwaj	694	12.05.2011 (FN)

2. The abovementioned officers will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'.

3. They have been posted as Assistant Directors in the following Media Units until further orders :—

1. Sh. Nilesh Kumar Kalbhor — Doordarshan News, New Delhi
2. Sh. Paramdeep Singh — Doordarshan News, New Delhi
3. Sh. Santosh Gopal Ajmera — NSD:AIR, New Delhi
4. Ms. Keerti Tiwari — PIB, New Delhi
5. Sh. Sidharth Babanrao Bodke — Doordarshan News, New Delhi
6. Sh. Mullangi Nanda Kishore — NSD:AIR, New Delhi
7. Sh. Mahesh Kumar — NSD:AIR, New Delhi
8. Ms. Navneet Kaur — PIB, New Delhi
9. Sh. Varun Bhardwaj — NSD:AIR, New Delhi

RENU ARORA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 1st July 2011

No. 264/2011 (F. No. 18/21/2007-Admn.II)—On attaining the age of superannuation, Shri A. D. Roy, Under Secretary, (CSL No.: 4387) of Central Secretariat Service cadre of this Ministry, posted in the Main Sectt. of this Ministry, has retired from Government Service on 30.06.2011 (A/N).

S. S. BEDI, Under Secy.

The 4th July 2011

No. 265/2011 (F. No. 6/1/2007-Admn.II)—The President is pleased to further extend Central Deputation Tenure of Shri Arvind Kumar, IAS (UP:88), Joint Secretary in the Ministry of Information & Broadcasting for a period of three months beyond 21.08.2011 i.e. upto 21.11.2011.

S. S. BEDI, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 4th July 2011

No. 167 of 2011 (F. No. A-38013/5/2010-Adm.I)—On attaining the age of superannuation, Shri K. R. Bansod, Section Officer of the CSS working in the Ministry of Labour & Employment has retired from Government Service, with effect from 30.06.2011 (A/N).

PRADEEP GAUR, Under Secy.

The 5th July 2011

No. A-22011/2/2005-Adm.I—The President is pleased to appoint Sh. Chandra Prakash, IAS (UP:82) as Joint Secretary in the Ministry of Labour & Employment with effect from the forenoon of 4th July, 2011 until further orders.

PRADEEP GAUR, Under Secy.